

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014—आषाढ़ 6, शक 1936

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2014

(2) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

क्र. एफ-1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 से 31 मई 2014 तक, आठ दिवस का स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश, राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए उन्हें दिनांक 26 मई 2014 से दिनांक 4 जून 2014 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2014

फा. क्र. 1(बी)-11-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री देवेन्द्र कुमार पलिया पुत्र श्री कन्हैयालाल पलिया, अधिवक्ता, गुना को उनके

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

फा. क्र. 1(सी)-16-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार दमोह जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री सुधीर पाण्डेय, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)-17-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री उत्तम जैन, अधिवक्ता झाबुआ को जिला झाबुआ में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)-15-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री हेमन्त कुमार कुमरावत, अधिवक्ता, बड़वानी को जिला बड़वानी में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2014

फा. क्र. 1(बी)-28-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री आलोक एस. गोयल पुत्र श्री शालिग्राम अग्रवाल, अधिवक्ता, हरदा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए हरदा सत्र खण्ड के हरदा राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला हरदा नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2014

क्र. एफ-9-1-2009-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948, 34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मेसर्स जे. पी. रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो. लिमि. जे.पी. नगर, रीवा, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2014 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा राजीव गांधी बेरोजगार भत्ता तथा पुनर्वास भत्ता जोड़ने तथा हितलाभ किसी भी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा से कम नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2014

फा. क्र. 17(ई) 35-05-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नियम, 1996 के नियम 14 के उपनियम(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथासंशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 1987 का संख्यांक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तालुक/ तहसील विधिक सेवा समिति के लिए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है:—

## अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	नाम-निर्दिष्ट सदस्य के नाम व पता (4)	तहसील संख्या (5)
46	बालाघाट	बालाघाट	1. श्री एम. आर. भोण्डेकर, अधिवक्ता 2. श्री एस. के. दीक्षित, सामा. कार्यकर्ता	3.
		1. वारासिवनी	1. श्रीमती भारती बिसेन, अधिवक्ता	
		2. कटंगी	1. श्री ईश्वर दयाल पटले, अधिवक्ता	
		3. बैहर	1. श्री जे. पी. कटेरे, अधिवक्ता	
47	कटनी	कटनी	1. श्रीमती सरोज तिवारी, अधिवक्ता 2. श्री भंवर सिंह चौहान, समाज सेवक	1
		1. विजयराघवगढ़	1. श्री बलराम गुप्ता, समाज सेवक	
48	रतलाम	रतलाम	1. श्री गोविन्द लाल शर्मा, सामा. कार्यकर्ता 2. सुश्री सरोज ओझा, सामा. कार्यकर्ता	3
		1. जावरा	1. श्री धरमचन्द्र चपड़ोद, सामा. कार्यकर्ता	
		2. सैलाना	1. श्री राजेन्द्र प्रसाद व्यास, सामा. कार्यकर्ता	
		3. आलोटे	1. श्री माणकलाल धाकड़, सामा. कार्यकर्ता	
49	सिवनी	सिवनी	1. श्री एम. के. सिंह, सामा. कार्यकर्ता 2. शबनम खां, सामाजिक कार्यकर्ता	1
		1. लखनादौन	1. डॉ. श्री कैलाश चन्द्र निगम, सामा. कार्यकर्ता	
50	ग्वालियर	ग्वालियर	1. श्री के. एन. शर्मा, सामा. कार्यकर्ता 2. श्री हरीश दीवान, सामा. कार्यकर्ता	2
		1. डबरा	1. श्री लकी ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता	
		2. भितरवार	1. श्री लोकेन्द्र सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता	

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-1560-14.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
“16.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी	डिण्डौरी.”

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-1560-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government hereby, makes the following Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 6th November 2009 namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule, for Serial Numbers 16 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted:—

### SCHEDULE

S. No. (1)	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge (2)	Local Area (3)
“16.	Ist Additional Sessions Judge, Dindori	Dindori.”

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1561-2014.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 27 तथा 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड (4)
“27.	श्री एस. के. रघुवंशी, सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)
52.	श्री राजकुमार पाण्डे, सत्र न्यायाधीश अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1)-1561-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April 1998 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated the 17th April 1998, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule, for Serial Numbers 27 and 52 and entries relating thereof the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
“27.	Shri S. K. Raghuvanshi, Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar).	Mandleshwar (West Nimar).	Mandleshwar (West Nimar).
52.	Shri Rajkumar Panday, Sessions Judge, Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar.”.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

#### संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. एफ-11-8-2014-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्थीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

#### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ग्राम-गरारू	शिव मंदिर	खसरा नं. 105	रकबा क्षेत्र 3.744 में से 0.100 है.	मध्यप्रदेश शासन मंड-पहाड़	पूजा के अधीन है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमेरेखा ढोले, अवर सचिव.

**आवास एवं पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

क्र. एफ-3-48-2014-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, आवास एवं पर्यावरण विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-3-32-99, दिनांक 27 जनवरी 1999 के द्वारा मैहर विकास योजना प्रारूप 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के तहत गठित समिति के गठन संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए मैहर विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन करता है. उक्त समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17क(1) खण्ड	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/ पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका, मैहर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सतना	सदस्य
(ग)	सांसद	संसदीय क्षेत्र, सतना	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, मैहर	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	-
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मैहर	सदस्य
(छ) 1.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पौडी सम्मिलित ग्राम पौडी गणेशपुर	सदस्य
2.	सरपंच	ग्राम पंचायत, हरनामपुर सम्मिलित ग्राम हरनामपुर कुशियारी, बूडा, करैया, बिजुरीया	सदस्य
3.	सरपंच	ग्राम पंचायत, कुटाई सम्मिलित ग्राम कुटाई	सदस्य
4.	सरपंच	ग्राम पंचायत, डाडी सम्मिलित ग्राम डाडी अमडा	सदस्य
5.	सरपंच	ग्राम पंचायत, उदयपुर	सदस्य
6.	सरपंच	ग्राम पंचायत, हरदुआ	सदस्य
7.	सरपंच	ग्राम पंचायत, अरकण्डी सम्मिलित ग्राम अरकण्डी, कोल्हाई	सदस्य
8.	सरपंच	ग्राम पंचायत, परसोखा सम्मिलित ग्राम उमरी पैला	सदस्य
9.	सरपंच	ग्राम पंचायत, तिघराकलॉ सम्मिलित ग्राम तिघराकलॉ	सदस्य
10.	सरपंच	ग्राम पंचायत, गिरगिटा सम्मिलित ग्राम गिरगिटा अमिलिया खुर्द	सदस्य
11.	सरपंच	ग्राम पंचायत, सोनवारी सम्मिलित ग्राम सोनवारी	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ज) 1.	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स ऑफ (इंडिया)	सदस्य
2.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आफ इण्डिया	सदस्य
3.	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ (इण्डिया)	सदस्य
4.	प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला सतना	सदस्य
5.	प्रतिनिधि	वन मण्डलाधिकारी, जिला सतना	सदस्य
6.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला सतना.	सदस्य
7.	प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद्, मैहर	सदस्य
(झ)	उप संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना	संयोजक

क्र. एफ-3-41-2014-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, आवास एवं पर्यावरण विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-3-175-32-95, दिनांक 15 जुलाई 1998 के द्वारा सागर विकास योजना प्रारूप 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के तहत गठित समिति के गठन संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए सागर विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन करता है. उक्त समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17क(1) खण्ड	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/ पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिक निगम, सागर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सागर	सदस्य
(ग)	सांसद	सागर	सदस्य
(घ)	1. विधायक 2. विधायक	सागर नरयावली	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	-
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सागर	सदस्य
(छ) 1.	सरपंच	ग्राम पंचायत, रतौना	सदस्य
2.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरी रेंगुवा	सदस्य
3.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बेरखेरी सुवंश	सदस्य
4.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पथरिया हाट	सदस्य
5.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बिहारीपुरा	सदस्य
6.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पगारा	सदस्य
7.	सरपंच	ग्राम पंचायत, कुड़ारी	सदस्य
8.	सरपंच	ग्राम पंचायत, कपूरिया	सदस्य
9.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बरारू	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	
10.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पटकुई	सदस्य	
11.	सरपंच	ग्राम पंचायत, सेमराबाग	सदस्य	
12.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बहेरिया गदगद	सदस्य	
13.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बदौना	सदस्य	
14.	सरपंच	ग्राम पंचायत, रूसल्ला	सदस्य	
15.	सरपंच	ग्राम पंचायत, सिद्धगुवां	सदस्य	
16.	सरपंच	ग्राम पंचायत, केरबना	सदस्य	
17.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बाछलौन	सदस्य	
18.	सरपंच	ग्राम पंचायत, रिछोड़ा	सदस्य	
19.	सरपंच	ग्राम पंचायत, गंभीरिया	सदस्य	
20.	सरपंच	ग्राम पंचायत, गुड़ा	सदस्य	
21.	सरपंच	ग्राम पंचायत, मकरोनिया बुजुर्ग	सदस्य	
22.	सरपंच	ग्राम पंचायत, रजाखेड़ी	सदस्य	
23.	सरपंच	ग्राम पंचायत, भैंसा	सदस्य	
24.	सरपंच	ग्राम पंचायत, आमेट	सदस्य	
25.	सरपंच	ग्राम पंचायत, रजौआ	सदस्य	
26.	सरपंच	ग्राम पंचायत, पथरिया जाट	सदस्य	
27.	सरपंच	ग्राम पंचायत, सिरोंज	सदस्य	
28.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़तुमा	सदस्य	
29.	सरपंच	ग्राम पंचायत, लिधौरा हाट	सदस्य	
30.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरीबीका	सदस्य	
31.	सरपंच	ग्राम पंचायत, खेजराबाग	सदस्य	
32.	सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरीदूढर	सदस्य	
33.	सरपंच	ग्राम पंचायत, मेनपानी	सदस्य	
(ज)	1.	प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आफ इण्डिया	सदस्य
	2.	प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स	सदस्य
	3.	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ (इण्डिया)	सदस्य
	4.	प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला सागर	सदस्य
	5.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सागर	सदस्य
	6.	प्रतिनिधि	वन मण्डल अधिकारी दक्षिण, सागर	सदस्य
	7.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सागर	सदस्य
(झ)		समिति के संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सागर.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.



**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 19 जून 2014

क्र. 958-614-पचास-2-14.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

**अनुसूची**

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिलों के नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री पुन्जया बारिया, AJ to CJ-II/JMFC
2	बालाघाट	बालाघाट	श्री के. डी. महार, CJ-I/CJM
3	बैतूल	बैतूल	कु. रितू चौहान, II CJ-II/JMFC
4	भिण्ड	भिण्ड	श्री मातादीन रजक, AJ to Ist CJ-I/JMFC
5	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्री गालीब रसूल, CJM
6	दमोह	दमोह	श्री अहमद रजा, IIAJ to CJ-I/JMFC
7	देवास	देवास	डॉ. श्रीमती शुभरा सिंह, III CJ-I/JMFC
8	धार	धार	श्रीमती आरती शर्मा, II CJ-II/JMFC
9	डिण्डौरी	डिण्डौरी	श्री सुभाष सोलंकी, CJ-I/CJM
10	झाबुआ	झाबुआ	श्री कुलदीप जैन, CJ-I/CJM
11	कटनी	कटनी	श्री दीपक बंसल, IV CJ-I/JMFC
12	मण्डला	मण्डला	श्री सुनील अहिरवार, II CJ-II/JMFC
13	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कु. सरिता बाधवानी, CJ-I/CJM
14	पन्ना	पन्ना	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, III CJ-II/JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
15	रायसेन	रायसेन	कु. निवेदिता मुदगल, CJ-I & CJM
16	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)	कु. सरिका बावरे, I CJ-II/JMFC
17	रतलाम	रतलाम	श्री विवेक कुमार चन्देल, AJ to I CJ-II/JMFC
18	सागर	सागर	श्री अवधेश कुमार गुप्ता, III CJ-I/JMFC
19	सतना	सतना	श्री अनुराग द्विवेदी, II CJ-/JMFC
20	शहडोल	शहडोल	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, IIAJ to CJ-I/JMFC
21	शाजापुर	शाजापुर	कु. सोनल पटेल, II AJ to I CJ-I/JMFC
22	सीधी	सीधी	श्रीमती संगीता यादव, III CJ-I/JMFC
23	सिंगरौली (बैधान)	सिंगरौली (बैधान)	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा, II AJ to I CJ-I/JMFC
24	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्री पूरन सिंह, II CJ-I/JMFC

No. 958-614-L-2-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 to 2000), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

#### SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirazpur	Alirazpur	Shri Punjya Bariya, AJ to CJ-II/JMFC
2	Balaghat	Balaghat	Shri K. D. Mahar, CJ-I/CJM
3	Betul	Betul	Ku. Ritu Chouhan, II CJ-II/JMFC
4	Bhind	Bhind	Shri Matadeen Rajak, AJ to Ist CJ-I/JMFC
5	Burhanpur	Burhanpur	Shri Galib Rasool, CJM

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Damoh	Damoh	Shri Ahmed Raza, IIAJ to CJ-I/JMFC
7	Dewas	Dewas	Dr. Smt. Shubhra Singh, III CJ-I/JMFC
8	Dhar	Dhar	Smt. Arti Sharma, II CJ-II/JMFC
9	Dindori	Dindori	Shri Subhash Solanki, CJ-I/CJM
10	Jhabua	Jhabua	Shri Kuldeep Jain, CJ-I/CJM
11	Katni	Katni	Shri Deepak Bansal, IV CJ-I/JMFC
12	Mandla	Mandla	Shri Sunil Ahirwar, II CJ-II/JMFC
13	Narsinghpur	Narsinghpur	Ku. Sarita Wadhwani, CJ-I/CJM
14	Panna	Panna	Shri Ravindra Kumar Sharma, III CJ-II/JMFC
15	Raisen	Raisen	Ku. Nivedita Mudgal, CJ-I & CJM
16	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)	Ku. Sarika Bawre, I CJ-II/JMFC
17	Ratlam	Ratlam	Shri Vivek Kumar Chandel, AJ to I CJ-II/JMFC
18	Sagar	Sagar	Shri Awdhesh Kumar Gupta, III CJ-I/JMFC
19	Satna	Satna	Shri Anurag Dwivedi, II CJ-/JMFC
20	Shahdol	Shahdol	Shri Roopesh Kumar Gupta, IIAJ to CJ-I/JMFC
21	Shajapur	Shajapur	Ku. Sonal Patel, II AJ to ICJ-I/JMFC
22	Sidhi	Sidhi	Smt. Sangeeta Yadav, III CJ-I/JMFC
23	Singrauli (Waidhan)	Singrauli (Waidhan)	Shri Gulab Chandra Mishra, II AJ to I CJ-I/JMFC
24	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri Pooran Singh, II CJ-I/JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एल. करयाम, उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 10 मई 2014

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2014-6311.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा हेतु विधायक प्रतिनिधि विदिशा में निम्नानुसार नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री छोटेलाल सम्भरवार पुत्र श्री उमेदजी निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा	मा. श्री कल्याण सिंह ठाकुर विधायक, विदिशा विधानसभा क्षेत्र क्रं. 144	1972 की धारा 11 (1) घ

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

## कार्यालय, कलेक्टर, (श्रम) जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 19 मई 2014

क्र. 16-2014-सतर्कता-बंधक-रीवा.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला रीवा मध्यप्रदेश का गठन किया जाता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से समिति का कार्यकाल 2 वर्ष (दो वर्ष) का होगा:—

धारा 3(2) (क) अध्यक्ष	कलेक्टर, रीवा (म. प्र.)
(ख)—3 (तीन) सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.	(1) पुलिस अधीक्षक, रीवा. (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा. (3) सहायक श्रमायुक्त/ जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, रीवा.
(ग)—2 (दो) सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व रीवा जिला निवासी है.	(1) श्री चन्दन खान, ग्राम वैसा तह. हुजूर जिला रीवा. (2) श्रीमती शशिकिरण मिश्रा, ग्राम करौदी, जिला रीवा.
(घ)—3 (तीन) सदस्य अनु. जाति एवं जनजाति के है व रीवा जिले के है.	(1) श्री सरोज रावत, ग्राम टिकुरी पो. दुवगवां जिला रीवा. (2) श्रीमती शांति कोल पत्नी श्री छोटेलाल कोल सरपंच ग्राम मडवा जिला रीवा. (3) श्री मिठाईलाल पिता श्री मुण्डा कोल ग्राम पटेहरा पो. जुडौरी गंगेव जिला रीवा.
(ङ)—1 (एक) जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है.	प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक सिरमौर चौराहा रीवा.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 11 जून 2014

क्र. बंधक श्रमिक-2014-658.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(2) एवं 13 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्डों

के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, शाजापुर

1. धारा 13 (2) ए—जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
2. धारा 13 (2) बी—अजा/अजजा/के सदस्य:—
  - (1) श्री कैलाश चौहान, नि. ग्राम तिलावद गोविन्द सदस्य
  - (2) श्री माखन सूर्यवंशी, नि. ग्राम भ्याना, शुजालपुर सदस्य
  - (3) श्री कालूराम भिलावा, नि. ग्राम दुपाडा सदस्य
3. धारा 13 (2) सी—जिले के सामाजिक कार्यकर्ता:—
  - (1) श्री डॉ. रवि पाण्डे, नि. मक्सी सदस्य
  - (2) श्री संतोष बराडा, नि. टंकी चौराहा, शाजापुर सदस्य
  - (3) श्रीमती यमुना कछावा, नि. धोबी चौराहा, शाजापुर सदस्य
4. धारा 13 (2) डी—ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य:—
  - (1) पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर सदस्य
  - (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर सदस्य
  - (3) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, शाजापुर सदस्य
5. धारा 13 (2) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—  
जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, शाजापुर

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, शाजापुर

1. धारा 13 (3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाजापुर अध्यक्ष
2. धारा 13 (3) बी—अजा/अजजा/के सदस्य:—
  - (1) श्री चन्दर सिंह सौराष्ट्रीय, नि. ग्राम मझानिया सदस्य
  - (2) श्री राजाराम सौराष्ट्रीय, नि. ग्राम बिकलाखेडी सदस्य
  - (3) श्री विक्रम मालवीय, नि. शाजापुर सदस्य
3. धारा 13 (3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—
  - (1) श्री प्रेम जैन, नि. बैरछा रोड. शाजापुर सदस्य
  - (2) श्री अर्जुनसिंह पाटीदार, नि. ग्राम रंथभंवर सदस्य
  - (3) श्रीमती प्रियंका खंडेलवाल, नि. सोमवारिया, शाजापुर सदस्य
4. धारा 13 (3) डी—ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:—
  - (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाजापुर सदस्य
  - (2) मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, शाजापुर सदस्य
  - (3) सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, शाजापुर सदस्य
5. धारा 13 (3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—  
प्रबंधक, जिल सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर सदस्य
6. धारा 13 (3) एफ—धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी:—  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाजापुर

## उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, शुजालपुर

- |  |         |
|--|---------|
| 1. धारा 13 (3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट शुजालपुर  | अध्यक्ष |
| 2. धारा 13 (3) बी—अजा/अजजा/के तीन सदस्य:—  |         |
| (1) श्री कन्हैयालाल, नि. सादनखेडी, कालापीपल  | सदस्य   |
| (2) श्री सुरेश मालवीय, नि. शुजालपुर  | सदस्य   |
| (3) श्री बेनसिंह, नि. ताजपुर, उकाल, शुजालपुर   | सदस्य   |
| 3. धारा 13 (3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—                                      |         |
| (1) श्री डॉ. पुरुषोत्तम शास्त्र, नि. शुजालपुर  | सदस्य   |
| (2) श्री रायसिंह मेवाडा, नि. कालापीपल  | सदस्य   |
| (3) श्रीमती अन्तिमा शर्मा, नि. शुजालपुर  | सदस्य   |
| 4. धारा 13 (3) डी—ग्रामीण विकास के संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:— |         |
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शुजालपुर                                   | सदस्य   |
| (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कालापीपल                                   | सदस्य   |
| (3) अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग, शुजालपुर   | सदस्य   |
| 5. धारा 13 (3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—                                    |         |
| प्रबंधक, को-ऑपरेटिव बैंक, शाखा शुजालपुर  |         |
| 6. धारा 13 (3) एफ—धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी:—                           |         |
| उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शुजालपुर  |         |

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 11 जून 2014

क्र. बंधक श्रमिक-2014-422.—प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-16 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति नीमच का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है:—

## जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला—नीमच

- | क्र. | अध्यक्ष/सदस्यों के नाम                                    | पद      |
|------|---|---------|
| 1.   | कलेक्टर   | अध्यक्ष |
| 2.   | पुलिस अधीक्षक   | सदस्य   |
| 3.   | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                      | सदस्य   |
| 4.   | जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग                       | सदस्य   |
|      | <b>अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य</b>                         |         |
| 5.   | श्री कैलाश पिता रमेशचन्द्र बोरीवाल, नि. नीमच              | सदस्य   |
| 6.   | श्री पन्नालाल पिता मोतीलाल, नि. मोडी तह. जावद             | सदस्य   |
| 7.   | श्री महेश पिता नानूराम बजेरिया, नि. ग्राम पालरी तह. मनासा | सदस्य   |
|      | <b>सामाजिक कार्यकर्ता</b>                                 |         |
| 8.   | श्री चतरसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत, नि. नीमच             | सदस्य   |
| 9.   | श्री पंकज पिता पवनजी दुबे, निवासी, नीमच                   | सदस्य   |
| 10.  | प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, नीमच                           | सदस्य   |

नीमच, दिनांक 13 जून 2014

क्र. बंधक श्रमिक-2014-433.—प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-16 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड नीमच का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है:—

## उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जिला—नीमच

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच	अध्यक्ष
<b>अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य</b>		
2.	श्री अनिल पिता श्री भागचंद भील, जेसिंगपुरा, नीमच	सदस्य
3.	श्री देवचंद पिता श्री बंशीलाल जाटव, नि. जेसिंगपुरा, नीमच	सदस्य
4.	श्री यशवंत पिता श्री बालाराम यादव, निवासी नीमच	सदस्य
<b>सामाजिक कार्यकर्ता</b>		
5.	श्री हरिश पिता श्री बाबूलाल मंगल, नूतन स्कूल के पास, नीमच	सदस्य
6.	श्री निलेश पिता श्री बंशीलाल पाटीदार, नीमच	सदस्य
7.	तहसीलदार, नीमच	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नीमच	सदस्य
9.	अनुविभागीय अधिकारी, (कृषि), नीमच	सदस्य
10.	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा नीमच	सदस्य

क्र. बंधक श्रमिक-2014-440.—प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-16 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड मनासा का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है:—

## उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, मनासा

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा	अध्यक्ष
<b>अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य</b>		
2.	श्री कालूराम पिता श्री खेमाजी, निवासी ग्राम कंजार्डा	सदस्य
3.	श्री नानालाल पिता श्री भेरुलाल, निवासी ग्राम धाकडखेडी	सदस्य
4.	श्री हीरालाल पिता श्री गौरीलाल भांभी, ग्राम धरवाड तह. मनासा	सदस्य
<b>सामाजिक कार्यकर्ता</b>		
5.	श्री केशव पिता श्री रामचन्द्र उपाध्याय, नि. अक्षत नगर मनासा	सदस्य
6.	श्री कैलाश पिता श्री जगन्नाथ पाराशर, नि. ग्रा. कंजार्डा-मनासा	सदस्य
7.	तहसीलदार, मनासा	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनासा	सदस्य
9.	अनुविभागीय अधिकारी, (कृषि), मनासा	सदस्य
10.	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मनासा	सदस्य

क्र. बंधक श्रमिक-2014-447.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-16 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड जावद का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जावद**

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद	अध्यक्ष
<b>अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य</b>		
2.	श्री विनोद पिता श्री बाबूलाल, नि. ग्रा. कोज्या तह. जावद	सदस्य
3.	श्री बाल किशन पिता श्री गिरधारीलाल, नि. ग्रा. तारापुर	सदस्य
4.	श्री मुकेश पिता श्री बद्रीलाल, नि. ग्रा. तारापुर	सदस्य
<b>सामाजिक कार्यकर्ता</b>		
5.	श्री अशोक पिता श्री मदनलाल, नि. जावद	सदस्य
6.	श्री संजय नामदेव पिता श्री घनश्याम नि. कसेरा बाजार, जावद	सदस्य
7.	तहसीलदार, जावद	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जावद	सदस्य
9.	अनुविभागीय अधिकारी, (कृषि), जावद	सदस्य
10.	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जावद	सदस्य

विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश**

सीहोर, दिनांक 13 जून 2014

क्र. श्र. प.-जि.सी. 2014-741.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीहोर के लिये निम्नानुसार अधिनियम की धारा 13 (3) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाता है:—

बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 (3) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन

**(1) उपखण्ड सीहोर**

1.	धारा 13 (3) ए	अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सीहोर
2.	धारा 13 (3) बी	सदस्य:—
		1. भगवानसिंह आ. भंवर जी, अ. जा. निवासी सास्ताखेडी तह. श्यामपुर.
		2. देवेन्द्र अहिरवार अ. जा. निवासी मुर्दी गंज सीहोर.
		3. निर्भयसिंह आ. रामरतन अ.ज.जा. निवासी मुंगावली दोराहा.
3.	धारा 13 (3) सी	1. विजयसिंह डांगी निवासी दोराहा
		2. जितेन्द्र राठौर आ. आनंद राठौर निवासी गंज सीहोर.
4.	धारा 13 (3) डी	1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सीहोर
		2. तहसीलदार, सीहोर
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सीहोर



5. धारा 13 (3) ई

(2) उपखण्ड आष्टा

1. धारा 13 (3) ए

2. धारा 13 (3) बी

3. धारा 13 (3) सी

4. धारा 13 (3) डी

5. धारा 13 (3) ई

(3) उपखण्ड इछावर

1. धारा 13 (3) ए

2. धारा 13 (3) बी

3. धारा 13 (3) सी

4. धारा 13 (3) डी

5. धारा 13 (3) ई

1. प्रबंधक को-आपरेटिव बैंक, सीहोर

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आष्टा

सदस्य:—

1. श्री रमेश सोलंकी, अभिभाषक, अ. जा. निवासी खामखेडा जत्रा
2. श्री सिद्धलाल आस. गोरीलाल कर्मा, अ.ज.जा. निवासी ग्राम देवली.
3. श्री सिद्धनाथ मालवीय अ.जा. निवासी अलीपुर आष्टा.

1. श्री सुशील संचेती आ. स्व. पुखराजमल जैन पत्रकार/सामाजिक कार्यकर्ता नि. आष्टा.
2. श्रीमती ख्याती खण्डेलवाल पत्नी श्री मनीष खण्डेलवाल, सामाजिक कार्यकर्ता बुधवारा रोड आष्टा.

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) आष्टा.
2. तहसीलदार आष्टा
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, आष्टा

1. प्रबंधक को आपरेटिव बैंक, आष्टा.

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इछावर

सदस्य:—

1. श्री दशरथसिंह आ. घासीराम मालवीय, अ. जा. निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील इछावर.
2. श्री मंशाराम आ. उमरावसिंह अ. जा. गोलूखेडी, तहसील इछावर.
3. श्री सुमेरसिंह आ. धनसिंह अ.ज.जा. निवासी ग्राम ढाबलामाता तहसील इछावर.

1. श्री एल. ए. सेफी आ. अकबर अली जाति बोहरा निवासी गंजीबड इछावर.
2. श्री ओमप्रकाश वर्मा आ. जगन्नाथ वर्मा, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, इछावर.

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नसरूल्लागंज (इछावर)
2. तहसीलदार, इछावर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, इछावर

1. प्रबंधक को-आपरेटिव बैंक, इछावर

## (4) उपखण्ड नसरुल्लागंज

1. धारा 13 (3) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नसरुल्लागंज

2. धारा 13 (3) बी

सदस्य:—

1. श्री मयाराम बारेला आ. नानसिंह बारेला, निवासी ग्राम पोस्ट कुरी नयापुरा
2. श्री भंवरसिंह इवने आ. हरिराम इवने निवासी ग्राम हमीदगंज, पोस्ट गोपालपुर.
3. श्री चतुर्भुज सोलंकी आ. रामविलास सोलंकी निवासी ग्राम अतरालिया, पोस्ट सोठिया.

3. धारा 13(3) सी

1. श्री राजेश लखेरा आ. जगदीश प्रसाद लखेरा निवासी दुर्गा मंदिर चौराहा भोपाल रोड नसरुल्लागंज.
2. श्री नर्बदाप्रसाद ऐरी आ. सीताराम ऐरी निवासी ग्राम वासुदेव, तहसील नसरुल्लागंज.

4. धारा 13(3) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नसरुल्लागंज
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नसरुल्लागंज
3. मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग

5. धारा 13(3) ई

1. जिला, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नसरुल्लागंज

## (5) उपखण्ड बुधनी

1. धारा 13 (3) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुधनी

2. धारा 13 (3) बी

सदस्य:—

1. श्री छोटेलाल आ. अनोखीलाल अहिरवार, निवासी ग्राम सेमरी रतनपुर.
2. श्री संतोष आ. हल्कैया अहिरवार, निवासी ग्राम शाहगंज
3. श्री रघुराज आ. इमरतलाल, निवासी ग्राम खैरीसिलगैना

3. धारा 13(3) सी

1. श्री कैलाश आ. हजारीलाल नागर, निवासी ग्राम मुराह
2. श्री गुलाब आ. फूलसिंह चौहान, निवासी ग्राम डुंगरिया

4. धारा 13(3) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बुधनी
2. तहसीलदार, बुधनी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बुधनी

5. धारा 13(3) ई

1. प्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक, बुधनी

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 11 जून 2014

क्र. 4105-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—सारंगपुर

(ग) नगर/ग्राम—भैसंवामाता, कलाली, टूटियाहैडी, पान्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.850 हेक्टेयर.

सर्वे कुल रकबा अर्जित किए जाने  
क्रमांक वाला रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)	(3)
ग्राम—भैसंवामाता		
201/1	0.360	0.120
207	0.182	0.040
202/1/1	0.085	0.040
202	0.085	0.040
203	0.040	0.015
204	0.036	0.020
208	0.081	0.010
251	0.016	0.010
245	0.097	0.050
246	0.142	0.010
224	0.798	0.050
219	0.980	0.100
221/1	0.551	0.025
221/2	0.275	0.035
योग . .	3.728	0.565

## ग्राम—कलाली

369	0.036	0.030
370	0.036	0.030
268/3	0.200	0.050

(1)	(2)	(3)
351/4/2	0.030	0.030
354	0.138	0.050
355	0.178	0.050
356	0.190	0.050
253	0.571	0.030
302	0.150	0.050
206	0.393	0.050
207	0.279	0.080
199	0.619	0.040
482	0.267	0.100
174	0.543	0.050
500	0.227	0.020
119/2	0.684	0.140
499	0.874	0.040
513	1.744	0.120
514	1.227	0.140
175/2	0.585	0.050
501	0.227	0.070
120/1/2	0.506	0.020
120/1/1	0.589	0.030
112	0.227	0.070
515	0.239	0.040
516	0.393	0.180
519/1	0.760	0.020
518/1/1	0.688	0.010
315	0.380	0.070
322/1, 322/2	0.316	0.050
321	0.024	0.024
319/2	0.063	0.015
320/2	0.038	0.015
317/1	0.202	0.015
193	0.607	0.050
184	1.315	0.100
119/1	0.683	0.100
303	0.101	0.040
304	0.304	0.080
326	0.138	0.030
328	0.380	0.050
197	0.065	0.065
483/2	0.251	0.100
176	0.458	0.020
489	1.327	0.050
511	1.127	0.050
512	0.263	0.050
योग . .	20.637	2.614

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	ग्राम—टूटियाहैडी			ग्राम—पान्दा	
70/2	0.265	0.020	775	0.089	0.060
58/7	0.506	0.040	776	0.013	0.013
63/2	0.721	0.060	850	0.937	0.210
65	1.150	0.120	777/2	0.704	0.060
69/1/3	0.264	0.060	787/2/1	0.150	0.020
69/2	0.278	0.060	778	0.755	0.030
345	0.278	0.040	784/4	0.098	0.010
71	0.291	0.060	782	0.266	0.030
236	0.152	0.090	783/2	0.227	0.030
238/2	0.981	0.040	784/3	0.098	0.010
78	0.076	0.025	785	0.038	0.038
276	0.480	0.170	787/1	0.968	0.050
277	0.215	0.020	787/2/2	0.627	0.040
88	0.063	0.040	803/4/6	0.253	0.010
348/2	0.126	0.050	812	0.911	0.020
360/1/1	0.400	0.020	845	0.405	0.030
359/1	0.549	0.040	851	1.088	0.200
356/2	0.273	0.030	855/1	0.442	0.100
359/3	0.549	0.040	855/2	0.442	0.070
356/3	0.273	0.030	869	0.455	0.150
356/1	0.263	0.030	870	0.342	0.300
344/1	0.113	0.050	475	0.581	0.030
233	1.922	0.120	489	0.304	0.050
384/1	0.019	0.010	449	0.089	0.010
387	0.089	0.020	451	0.202	0.050
388	0.537	0.030	491	0.139	0.050
344/2	0.240	0.050	780/2	0.480	0.020
257	0.316	0.020	योग . .	11.103	1.691
274/1/1	0.073	0.020	महायोग . .	54.155	6.850
289/2	1.164	0.140	(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण—1. लोक निर्माण		
275/1	0.107	0.020	विभाग संभाग राजगढ़, 2. अनुविभागीय अधिकारी		
243	1.922	0.040	(राजस्व) कार्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय		
248/1/1/4	0.829	0.060	में किया जा सकता है.		
248/1/1/2	0.365	0.025	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
248/1/1/3	0.265	0.025	आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
248/1/2	0.253	0.030			
248/3/1	0.531	0.040			
247/1	0.696	0.060			
245/1/1	0.715	0.060			
245/1/2	0.357	0.025			
245/1/3	0.357	0.025			
383	0.190	0.025			
योग . .	18.687	1.980			
			कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं		
			पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
			सतना, दिनांक 12 जून 2014		
			क्र. एफ-211-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		
			का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(मध्यप्रदेश शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—श्यामनगर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.349 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2333/2/2K	3.420
2333/2/2Kh/2	0.545
2333/2/2Kh/1	0.238
2333/2/2ग	0.397
2340/1	0.382
2333/2/1घ	0.678
2333/2/1ग	2.184
2333/2/1ज	1.082
2333/2/ड/3	0.015
2333/2/1/ड/1	0.078
2332/1	0.103
2332/2	0.033
2326/3	0.230
2326/7	0.099
2326/5क	0.411
2326/5ख	0.389
2326/5ग	0.318
2326/6	0.721
2326/8	0.396
2326/9	0.175
2326/2	0.553
2326/1ख	0.334
2326/4	0.631
2094	0.291
2095	0.192
2089/6	0.469
2091	0.044
2089/4	0.587
2089/5	0.510
2090	1.844
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	17.349

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—  
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 18 जून 2014

क्र. 4253-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (ग्राम गोरखपुरा तालाब की शेष रही भूमि) के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—राजगढ़  
(ग) ग्राम—कुशलपुरा, रोजड़खुर्द, लालपुरा, रोज्या  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.937 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-कुशलपुरा, कुल रकबा 8.137

4/8	0.570
4/9	0.300
8	0.150
5/3	1.517
5/6	0.750
4/10	0.800
16/5	0.300

(1)	(2)
5/1/3	0.400
5/4	1.000
4/5	0.800
16/6	0.300
4/2/2	0.500
5/5	0.750
योग . .	8.137

**ग्राम-रोजडखुर्द, रकबा 2.000 हेक्टेयर**

33/1/2/2	0.600
12/13	0.600
2/1/2/1	0.200
33/1/2/1	0.600
योग . .	2.000

**ग्राम-लालपुरा, रकबा 0.600 हेक्टेयर**

25/2	0.600
योग . .	0.600

**ग्राम-रोज्या, रकबा 2.200 हेक्टेयर**

27/1	0.600
28/6	0.400
27/8	0.600
22/3	0.600
योग . .	2.200

महायोग . . 12.937

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—(ग्राम गोरखपुरा तालाब की शेष भूमि) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु
- (3) भूमि के नक्शे का प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4255-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (ग्राम सूरजपुरा तालाब की शेष भूमि) के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

- (ख) तहसील—राजगढ़  
(ग) ग्राम—बामलाबे  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/2	1.50
योग . .	1.50

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—(ग्राम सूरजपुरा तालाब की शेष भूमि) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे का प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आनन्द कुमार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 जून 2014

क्र. 498-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सेमरिया  
(ग) नगर/ग्राम—छिरहटा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.904 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.063
22	0.045

(1)	(2)
23	0.100
24	0.088
25	0.032
26	0.016
28	0.105
21	0.089
20	0.075
29	0.057
16	0.098
17	0.053
15	0.088
10	0.076
14	0.065
11	0.191
12	0.085
13	0.069
74	0.143
75	0.130
76	0.093
77	0.119
78	0.024
योग . . 1.904	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बामसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 19 जून 2014

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—सलैया

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.73 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1545	0.04
1547	0.05
1548	0.09
1549	0.04
1552	0.01
1553	0.02
1554	0.11
1561	0.03
1590	0.06
1591	0.03
1598	0.07
1599	0.05
1600	0.01
1601	0.05
1612	0.07
योग . . 0.73	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 5 एल की सबशाखा क्र. 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 जून 2014

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—बेरखेड़ीघाट  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.126 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
85/2	0.034
131	0.180
132	0.120
134	0.130
136	0.126
137/2	0.048
137/1	0.080
138	0.039
141/1	0.306
142	0.063
योग . .	<u>1.126</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. बी. ओझा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 जून 2014

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—चांवडी, प.ह.नं. 114, ब. नं.-167,  
रा. नि. म.-सिवनी 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412	0.45
411/2	0.01
411/1	0.31
411/3	0.03
409	0.07
408	0.02
407	0.11
406/2	0.11
405	0.48
397	0.21
400	0.08
126	0.26
127/2	0.33
127/1	0.02
129	0.18
130	0.22
131	0.03
145	0.02
121	0.14
149	0.13
105/4	0.01
106/2	0.12
87	0.01
106/1	0.36
99	0.15

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में



(1)	(2)
88	0.06
89	0.03
90	0.18
91	0.04
92/4	0.16
92/3	0.10
92/2	0.23
75/3	0.04
75/1	0.06
75/2	0.01
289	0.24
294	0.18
293/1	0.34
296	0.26
297	0.01
299	0.07
300/1	0.04
300/3	0.36
315	0.20
316	0.20
317	0.18
318	0.02
312/2	0.13
310	0.21
309	0.31
308	0.01

कुल योग . . 7.53

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—आमाकोला, प.ह.नं. 129, ब. नं.-12, रा. नि. म.-सिवनी 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.20 हेक्टेयर.

##### खसरा नम्बर

##### अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

##### (1)

##### (2)

49/1

0.13

48

0.02

47/1

0.54

47/4

0.36

46

0.01

44

0.38

43

0.09

45

0.04

42

0.73

10

0.02

25

0.10

22

0.23

41/1

0.36

35

0.01

37/1

0.13

32

0.03

23

0.02

कुल योग . . 3.20

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—भण्डारपुर, प.ह.नं. 126, ब. नं.-462,  
रा. नि. म.-सिवनी 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित क्षेत्रफल  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
101	0.03
105	0.06
104	0.24
107/2	0.10
107/1	0.12
108/4	0.17
108/3	0.15
108/2	0.04
109	0.21
136	0.21
138	0.01
137	0.20
135	0.30
91/1	0.06
90/1	0.11
90/5	0.13
89/2	0.09
89/3	0.22
89/1	0.51
175	0.15
174	0.40
307	0.03
308	0.21
305/1	0.07
304	0.32
299/2	0.41
299/1	0.01

(1)	(2)
301/3	0.04
299/3	0.08
300	0.03
301/2	0.15
267	0.02
272	0.52
271/1	0.03
274/1	0.54
254	0.19
255	0.16
256	0.68

कुल योग . . 7.00

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—लखनवाड़ा, प.ह.नं. 114, ब. नं.-532,  
रा. नि. म.-सिवनी 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.75 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406	0.38
408	0.12

(1)	(2)
409	0.45
410	0.02
412	0.46
413/1	0.19
413/2	0.12
414	0.01
कुल योग . . 1.75	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—कारीरात, प.ह.नं. 125, ब. नं.-59, रा. नि. म.-सिवनी 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
637	0.24
638	0.08
645/1	0.03
645/2	0.27

(1)	(2)
647	0.31
648	0.09
कुल योग . . 1.02	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—सिमारिया, प.ह.नं. 113, ब. नं.-572, रा. नि. म.-सिवनी 1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.62 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/1	0.18
187	0.34
197	0.16
198	0.23
196/1	0.56
196/2	0.02
196/3	0.34
193/1	0.20
195	0.01

(1)	(2)	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
194/1	0.08	क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
194/2	0.20	
192	0.39	
191	0.10	
164/1	0.16	
152/3	0.21	
152/2	0.20	
155/2	0.22	
155/3	0.44	
155/1	0.22	
154/1	0.02	अनुसूची
157/1	0.09	(1) भूमि का वर्णन—
156	0.68	(क) जिला—सिवनी
16	0.12	(ख) तहसील—सिवनी
15	0.12	(ग) नगर/ग्राम—पिण्डरई, प.ह.नं. 126, ब. नं.-365, रा. नि. म.-सिवनी 1
17	0.36	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.05 हेक्टेयर.
13/2	0.39	खसरा नम्बर
12	0.39	अर्जित क्षेत्रफल
7	0.56	(हेक्टेयर में)
10/1	0.22	(1)
9/1	0.13	(2)
9/2	0.08	15
9/3	0.04	16/1
8	0.51	43
3	0.08	42
38	0.20	41
27/4	0.16	46/2
27/2	0.15	46/5
27/1	0.02	38/2
26	0.04	49
		48
		47/1
		54
		55/1
		56
		57
		0.52
		कुल योग . . 3.05

कुल योग . . 8.62

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4519-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—पलारी प.ह.नं. 129, ब. नं.-329,  
रा. नि. म.-सिवनी 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित क्षेत्रफल  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
107/2	0.37
111	0.04
107/1	0.24
115	0.11
110	0.03
230	0.02
112	0.03
114	0.04
113	0.06
105/2	0.64
116	0.08
105/3	0.26
105/1	0.24

कुल योग . . 5.45

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-539-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-बोड़ायात, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	0.41	2.84	3.25
	योग . .	0.41	2.84	3.25

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रामचन्द्र पिता रणछोड़, जाति गरवाल भील, पता निवासी निनामापाड़ा भूमि स्वामी.	400	—	0.72	0.72	—	0.59	0.59
2	जयराम पिता थाऊ, जाति बन्जारा, पता निवासी टाण्डालाला नायक भूमि स्वामी.	401	—	0.28	0.28	—	0.19	0.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	रामचन्द्रन, नन्दू, रादू पिता रणछोड़ सुकल्या पिता नाथा पता निवासी निनामापाड़ा भूमि स्वामी.	406	-	0.38	0.38	-	0.05	0.05
4	मांगीलाल पिता थाऊ, जाति बन्जारा, पता निवासी टान्डालाला नायक भूमि स्वामी.	423	-	0.18	0.18	-	0.18	0.18
5	यशोधरा कुंवर पति महेन्द्र सिंह राठौर जाति राठौर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	424 458	- 1.13	0.42 -	0.42 1.13	- 0.28	0.25 -	0.25 0.28
6	मानदातारसिंह पिता कर्ण सिंह, जाति राठौर, पता निवासी ग्राम डाबड़ी भूमि स्वामी.	425	0.98	-	0.98	0.13	-	0.13
7	बदुडी पति सुखराम, सकुडी पति अम्बू तैजुडी पति सकरू जाति नेहरता (भील) पता निवासी ग्राम तिखीपाड़ा भूमि स्वामी.	427	-	0.86	0.86	-	0.21	0.21
8	उदेसिंग पिता थाऊ, जाति बन्जारा, पता निवासी टान्डालाला नायक भूमि स्वामी.	461	-	0.18	0.18	-	0.13	0.13
9	गल्या पिता थावरियाधिसुड़ी वेस्ती पिता थावरिया अम्बाराम पिता बद्धा भूमि स्वामी.	871	-	0.28	0.28	-	0.09	0.09
	सोहन पिता देवचन्द पुनी बेवा देवचन्द जाति भील भूमि स्वामी	870	-	0.87	0.87	-	0.12	0.12
	मानकी पिता बद्धामाँगू तेजराम गोपाल पिता नानुराम जाति भील भूमि स्वामी वालकी बेवा	869	-	0.87	0.87	-	0.59	0.59
	नानुरामश्यामा मागीया पिता फुलिया जाति गरवाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	868 866 865	- - -	0.23 0.40 0.69	0.23 0.40 0.69	- - -	0.03 0.11 0.30	0.03 0.11 0.30
योग . .			2.11	6.36	8.47	0.41	2.84	3.25

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-541-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-रूपापाड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	1.55	2.48	4.03
योग . .		1.55	2.48	4.03

### अनुसूची (2)

#### माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सुरवलिया पिता माँगू जाति पारगी भूमि स्वामी.	77 100	- -	1.14 0.32	1.14 0.32	- -	0.50 0.07	0.50 0.07
2	टिबली, मँगली वेवा नन्दा जाति मैड़ा भूमि स्वामी.	92 93	- -	0.48 0.63	0.48 0.63	- -	0.18 0.14	0.18 0.14
3	मोती पिता नन्दा, जाति मैड़ा, भूमि स्वामी.	91	-	0.40	0.40	-	0.40	0.40
4	सुरजी पिता किशना व चुनकी बैवा किशना पारगी जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	90	1.97	-	1.97	0.06	-	0.06
5	भेरिया, बद्री, नेवजी पिता झीतरा जाति सोलन्की भूमि स्वामी	88 86 85	- - -	0.50 1.48 0.08	0.50 1.48 0.08	- - -	0.31 0.78 0.03	0.31 0.78 0.03
6	अमरिया, कुवरा, चेनसिंग, सोमला, पिता रणछोड़, काली वेवा रणछोड़ पारगी जाति पारगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	79	-	1.07	1.07	-	0.07	0.07



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	सुरजी पिता किशना जाति पारगी भूमि स्वामी.	78	2.47	-	2.47	1.05	-	1.05
8	हिरा पिता खुशाल जाति बारिया भूमि स्वामी.	69	0.44	-	0.44	0.44	-	0.44
योग . .			4.88	6.10	10.98	1.55	2.48	4.03

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-543-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-निनामापाड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	0.00	2.76	2.76
योग . .		0.00	2.76	2.76

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अम्बाराम पिता हरचंद	89	-	0.10	0.10	-	0.08	0.08
	जाति कुलंबी पता निवासी बोडायता	88	-	0.75	0.75	-	0.12	0.12
	भूमि स्वामी	90	-	0.77	0.77	-	0.30	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	सजनी पति गंगाराम जाति चरपोटा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	19/1	-	1.69	1.69	-	1.51	1.51
3	राधेलाल पिता हरचंद जाति कुलंबी पता निवासी बोडायता भूमि स्वामी.	20	-	1.55	1.55	-	0.38	0.38
4	सुरजी पति दितुडा पारगी जाति भील पता निवासी ग्राम नाहरपुरा भूमि स्वामी.	17/2	-	0.27	0.27	-	0.23	0.23
5	उकेड़िया पिता रामा जाति भूरिया भूमि स्वामी.	17/3	-	0.16	0.16	-	0.01	0.01
6	राधेलाल पिता हरचंद जाति कुलंबी पता निवासी बोडायता भूमि स्वामी.	91	-	0.55	0.55	-	0.13	0.13
योग . .			-	5.84	5.84	-	2.76	2.76

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) ]

प्र. क्र.-545-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-तिखीपाड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	3.78	2.96	6.74
योग . .		3.78	2.96	6.74

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कान्जी मन्ना, राधु, रमेश पुत्रगण काल्या जाति भील भूमि स्वामी.	72	-	0.98	0.98	-	0.05	0.05
2	सुरज पति दितुड़ा जाति पारगी पता नि. ग्राम नहारपुरा भूमि स्वामी.	71 66 67	0.33 0.53 0.36	- - -	0.33 0.53 0.36	0.09 0.45 0.29	- - -	0.09 0.45 0.29
3	नन्दा चन्दा गवजी पिता वागजी गणावा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	65	-	0.68	0.68	-	0.21	0.21
4	नन्दा पुत्र बागा जाति गणावा पता नि. डाबडी भूमि स्वामी	70 56	- -	0.10 0.26	0.10 0.26	- -	0.10 0.08	0.10 0.08
5	भेरू पुत्र तेरिया जाति गणावा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	68	-	0.41	0.41	-	0.01	0.01
6	सरोज बेवा किशोर जाति टांक पता नि. बोडायता भूमि स्वामी.	69 58	- -	0.12 1.61	0.12 1.61	- -	0.12 0.61	0.12 0.61
7	वरसिंग पिता खातु चरपोटा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	48 20/1	- 0.96	0.69 -	0.69 0.96	- 0.02	0.07 -	0.07 0.02
8	शान्ती पति रामा व मांगुडी पति भरत जाति चरपोटा पता निवासी ग्राम (नहारपुरा) भूमि स्वामी.	53 47/2 50/2	- - -	0.10 0.53 0.30	0.10 0.53 0.30	- - -	0.10 0.40 0.27	0.10 0.40 0.27
9	लाला पुत्र हिरा जाति चरपोटा पता नि. नहारपुरा भूमि स्वामी	23 19	- -	1.07 1.42	1.07 1.42	- -	0.11 0.07	0.11 0.07
10	समसू पिता खातू चरपोटा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	47/1 20/2	0.33 1.37	- -	0.33 1.37	0.20 1.10	- -	0.20 1.10
11	औंकार, चन्दिया, बाबू पुत्रगण नराण जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी राजेश लालु पिता नन्दु पुत्री संतोष पिता नन्दु अ. पा. क. माता बाबुडी व बाबुडी बेवा नन्दु मकवाना जाति भील पता नि. महुडीपाडा कला भूमि स्वामी शम्भूडी बेबा नराण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	18	0.97	-	0.97	-	0.76	0.76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	नवीनचन्द्रसिंह अग्निनारायणसिंह रघुपालसिंह पिता गजराजसिंह व मायाकुवर बेवा गजराजसिंह राठौर जाति राजपुत पता नि. बोडायता भूमि स्वामी.	17	1.82	-	1.82	0.28	-	0.28
13	अमरिया, हेमराज पुत्र दल्ला जाति डामर पता नि. महुडीपाडा कला भूमि स्वामी.	6	2.29	-	2.29	1.35	-	1.35
योग . .			7.99	9.24	17.23	3.78	2.96	6.74

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-547-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-टाण्डापड़ाव, तहसील-पेटलावद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	0.00	0.25	0.25
योग . .		0.00	0.25	0.25

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नाथीया पिता हमीरिया जाति गरवाल पता पीपलीपाडा भूमि स्वामी.	372	-	1.35	1.35	-	0.25	0.25
योग . .			-	1.35	1.35	-	0.25	0.25

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-549-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-टाण्डालाला नायक, तहसील-पेटलावद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	1.49	6.43	7.92
योग . .		1.49	6.43	7.92

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	जालम, मानू, मोहन पुत्रगण अमरू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सेठानी बेवा अमरू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	76	—	0.23	0.23	—	0.16	0.16
2	मोहन, भूरा, मदन, छगन पुत्रगण कन्नीराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पुनीलाल पुत्र बलराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	77 86	0.25 0.13	— —	0.25 0.13	0.07 0.08	— —	0.07 0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	रोशनबाई पति पारसमल जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	78	0.29	-	0.29	0.01	-	0.01
4	अमरू पिता प्रताप जाति बंजारा पता सा. देह भूमि स्वामी.	88 89 93	0.28 - -	- 0.27 0.30	0.28 0.27 0.30	0.20 - -	- 0.27 0.10	0.20 0.27 0.10
5	रामसिंह पुत्र अणदा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	90	0.25	-	0.25	0.25	-	0.25
6	धन्ना, भोपत, गहू पि. बट्टी शान्ती बेवा बट्टी जाति बंजारा पता सा. देह भूमि स्वामी.	102/1	0.21	-	0.21	0.21	-	0.21
7	जगराम पिता धुला जाति बंजारा पता सा. देह भूमि स्वामी.	114/1	0.21	-	0.21	0.21	-	0.21
8	हीरालाल बाबूलाल पुनमसिंग दिनेश माधव राजेश पिता गुलाब बहिन लीला मीरा मैना झाली पिता गुलाब सेठानी बेवा गुलाब जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	117	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04
9	छगन पिता कनिराम बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	118	-	0.15	0.15	-	0.15	0.15
10	उदा पिता धुला जाति बंजारा पता सा. देह भूमि स्वामी.	119	-	0.24	0.24	-	0.24	0.24
11	रादू पिता थावरिया व हरिया, वरसिंग पिता सोमला व रेशमी बेवा सोमला जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामला पुत्र कैशा पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी रणछोड़, मानसिंह, नाहरसिंह कालू पुत्रगण तैजा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जडकी बेवा तैजा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी नाथू पूना पुत्र लाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	142 153 410	- - -	0.19 0.44 0.27	0.19 0.44 0.27	- - -	0.02 0.16 0.04	0.02 0.16 0.04
12	रणछोड़, मानसिंह, नाहरजी, कालू पुत्रगण तेजा जाति नेह. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जडकी बेवा तेजा जाति नेह. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	144 155 156 157 407 413 417 418	- - - - - - - -	0.13 0.35 0.11 0.18 0.20 0.10 0.44 0.38	0.13 0.35 0.11 0.18 0.20 0.10 0.44 0.38	- - - - - - - -	0.01 0.11 0.11 0.18 0.20 0.10 0.35 0.11	0.01 0.11 0.11 0.18 0.20 0.10 0.35 0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	राजली बेवा नाराण जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	149	--	0.25	0.25	--	0.13	0.13
14	कालु पिता तेजा नेहरता जाति भील पता निवासी ग्राम करमदीखेड़ा भूमि स्वामी.	150 151	-- 0.56	0.02 --	0.02 0.56	-- 0.19	0.02	0.02 0.19
15	देवा पिता हजारि पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सीता बेवा हजारि पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	158 324 325 332 335	-- -- -- -- --	0.06 0.15 0.06 0.51 0.21	0.06 0.15 0.06 0.51 0.21	-- -- -- -- --	0.05 0.03 0.06 0.10 0.13	0.05 0.03 0.06 0.10 0.13
16	प्रकाशचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाति भण्डारी पता न. ग्राम भूमि स्वामी.	286	--	1.16	1.16	--	0.44	0.44
17	रामसिंह पुत्र भामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	287	--	0.07	0.07	--	0.07	0.07
18	काना पिता गंगाराम ताड जाति भील पता निवासी ग्राम महुडीपाडाकला भूमि स्वामी.	288	--	0.08	0.08	--	0.08	0.08
19	छगन पुत्र मोती जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	311 333	-- --	0.50 0.56	0.50 0.56	-- --	0.03 0.48	0.03 0.48
20	मानसिंह पुत्र भाणा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	316 317 318 319 322	-- -- -- 0.26 --	0.56 0.08 1.08 -- 0.27	0.56 0.08 1.08 0.26 0.27	-- -- -- 0.15 --	0.03 0.05 0.60 -- 0.02	0.03 0.05 0.60 0.15 0.02
21	चन्दू पुत्र मोडसिंह पता ग्राम भूमि स्वामी.	323 336 406 408	-- -- -- --	0.35 0.92 0.20 0.12	0.35 0.92 0.20 0.12	-- -- -- --	0.30 0.25 0.04 0.12	0.30 0.25 0.04 0.12
22	जगदीश पिता झामासुन्दर बेवा झामा जाति बंजारा पता सा. देह भूमि स्वामी.	334	--	0.60	0.60	--	0.05	0.05
23	हीरालाल बाबूलाल पुनमसिंग दिनेश माधव राजेश पिता गुलाब बहिन लीला मीरा मैना झाली पिता गुलाब सेठानी बेवा गुलाब जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	398 399 400	-- -- --	0.32 0.04 0.08	0.32 0.04 0.08	-- -- --	0.16 0.04 0.08	0.16 0.04 0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	जालम, मानू, मोहन पुत्रगण अमरू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सेठानी बेवा अमरू जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	403	0.22	-	0.22	0.12	-	0.12
25	रामसिंह पुत्र अणदा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	404 405 409	- - -	0.18 0.32 0.24	0.18 0.32 0.24	- - -	0.10 0.22 0.08	0.10 0.22 0.08
26	रादू पुत्रगण थावरिया जाति खेड़ा पता करमदीखेड़ा भूमि स्वामी हरिया, वरसिंग, पिता सोमला वरेशमी वैवा सोमला जाति खेड़ा पता निवासी ग्राम करमदीखेड़ा भूमि स्वामी	412 419	- -	0.22 0.17	0.22 0.17	- -	0.01 0.09	0.01 0.09
27	नर्मदाबाई पुत्री धनकी पता करमदीखेड़ा भूमि स्वामी	416	-	0.10	0.10	-	0.07	0.07
28	जमना पुत्र मानसिंह जाति बंजारा पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	270	-	0.16	0.16	-	0.16	0.16
योग . .			2.66	13.66	16.32	1.49	6.43	7.92

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) ]

प्र. क्र.-551-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-गोठानिया खुर्द, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	1.65	1.31	2.96
योग . .		1.65	1.31	2.96



## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सावरणीया, कान्तीलाल पिता गलिया व पारी बेवा गलिया जाति भाभर भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	281	0.31	-	0.31	0.04	-	0.04
2	विरजी पिता धुला जाति मुण्या भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	217	-	0.52	0.52	-	0.37	0.37
3	हरचन्द पिता कलजी व दली बेवा कलजी जाति मुण्या भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	216	-	0.25	0.25	-	0.21	0.21
4	गणपत पिता कलजी जाति मुण्या भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	215	-	0.09	0.09	-	0.09	0.09
5	मागु पिता कलजी जाति मुण्या भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	214	-	0.07	0.07	-	0.01	0.01
6	देवचंद हरचंद लालू पिता गलिया बरदी बेवा गलिया, शम्भू, धुलीया, कानजी पि. सोमला, वदौलकी बेवा सोमला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	212	-	0.64	0.64	-	0.40	0.40
7	मांगुडी पुत्री लाला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	211	0.59	-	0.59	0.38	-	0.38
8	मडीया पिता काल्या जाति भुरीया भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210 169	1.01 -	- 0.96	1.01 0.96	0.16 -	- 0.08	0.16 0.08
9	पुष्पेन्द्रसिंह पिता नाथुसिंह पंवार जाति बजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	173 172	- 0.02	0.02 -	0.02 0.02	- 0.02	0.01 -	0.01 0.02
10.	नाथु बदी बाबु पिता जवरीया जाति डामर भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	171	0.27	-	0.27	0.02	-	0.02
11	सज्जन पिता भुवान जाति डामर भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	170	-	0.48	0.48	-	0.14	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	पृथ्वीसिंह पिता बालु बंजारा जाति राठोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	168	0.48	-	0.48	0.40	-	0.40
13	कोदा रादू रमेश पिता वागजी व घीसुडी बेवा वागजी जाति सिंगाड़ भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	282	1.62	-	1.62	0.63	-	0.63
योग . .			4.30	3.03	7.33	1.65	1.31	2.96

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-553-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-जुनवानिया, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	1.82	1.60	3.42
योग . .		1.82	1.60	3.42

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मंडी पिता बद्धा सिंगाड़, जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	14	0.81	-	0.81	0.30	-	0.30
2	चांदू, बीजीया, गटीया पिता लच्छा डामर जाति भील पता नि. ग्राम (जुलवानिया) भूमि स्वामी.	15	0.78	-	0.78	0.56	-	0.56

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	कान्ताबाई पुत्री बद्धा, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16	0.31		0.31	0.05		0.05
4	नानजी पुत्र लुणा, जाति डामर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	18 41	0.15 0.43		0.15 0.43	0.10 0.28		0.10 0.28
5	कामेरीबाई पति भवरलाल खड़ीया, जाति भील, पता नि. आमलीरुण्डा भूमि स्वामी	42 43 45 48	0.57 0.34 0.21 0.08		0.57 0.34 0.21 0.08	0.02 0.22 0.01 0.05		0.02 0.22 0.01 0.05
6	बालु पिता रादू, जाति ताड़, पता सा. देह भूमि स्वामी	49		0.27	0.27		0.01	0.01
7	रतन पिता मकना पारगी, जाति भील, पता नि. अमलीरुण्डा भूमि स्वामी	50	0.49		0.49	0.09		0.09
8	धापुबाई पति हेमराज, जाति ताड़, पता सा. देह भूमि स्वामी	113 112/2		0.18 0.14	0.18 0.14		0.10 0.13	0.10 0.13
9	कालू पिता शम्भू, जाति डामर, पता सा. देह भूमि स्वामी	115		0.63	0.63		0.34	0.34
10	नानुराम पुत्र भेरा, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	119		0.16	0.16		0.01	0.01
11	दल्ला पुत्र कुला, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	124/1		0.24	0.24		0.14	0.14
12	नाथू पिता गोबा डामर, जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1		0.90	0.90		0.36	0.36
13	गल्या पुत्र भेरा, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	118/1		0.31	0.31		0.04	0.04
14	नानुराम पुत्र भेरा, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	118/2		0.32	0.32		0.23	0.23
15	दल्ला पुत्र कुला, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	118/3		0.16	0.16		0.16	0.16
16	मानसिंह पुत्र रादू, जाति ताड़ भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	40/1	0.37		0.37	0.15		0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	बालु पिता रादू, जाति ताड़, पता सा. देह भूमि स्वामी	40/2		0.43	0.43		0.08	0.08
योग :			4.54	3.74	8.28	1.82	1.60	3.42

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र.-555-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-बरवेट, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	3.58	6.35	9.93
योग . .		3.58	6.35	9.93

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कलावती बाई पति हरीराम, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	318	0.68		0.68	0.07		0.07
2	गोपाल पिता तुलसीराम, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	313		0.460	0.46		0.080	0.08
3	हरीराम पिता भेरूलाल पाटीदार, भूमि स्वामी	320	0.63		0.63	0.020		0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	सुन्दरबाई पिता मांगीलाल, जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291		0.270	0.27		0.060	0.06
5	ईश्वरलाल, जगदीश पिता दुलीचन्द नन्दीबाई बेवा दुलीचन्द जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम दर शिकमी	290		0.130	0.13		0.010	0.01
6	नारायणप्रसाद पिता विष्णूलाल, जाति ब्राह्मण, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	494	0.79		0.79	0.020		0.02
7	रतनलाल पिता गिरधारी, जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	692		0.700	0.70		0.070	0.07
8	जगदीश लोकेन्द्र पिता रामचंद, अ. पा. कर्ता माता धापुबाई, धापुबाई बेवा रामचंद, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	689		0.350	0.35		0.020	0.02
9	बाबू पिता देवरा, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	593	0.43		0.43	0.220		0.22
10	गोविन्द पिता नन्दा, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	592		0.590	0.59		0.040	0.04
11	उंकारलाल, रमेश, अमृतलाल पिता नारायण व सजनबाई बैवा नारायण, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	513 501	0.61	0.190	0.19 0.61	0.010	0.090	0.09 0.01
12	पुना पिता माँगीया, जाति निनामा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275		0.240	0.24		0.100	0.10
13	गोरधनलाल पिता नारायणलाल, जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	363 298	0.15 0.44		0.15 0.44	0.070 0.110		0.07 0.11
14	गोविन्दलाल पिता नारायणलाल जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	302 296/3	0.2 0.54		0.20 0.54	0.020 0.400		0.02 0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	सुशीलाकुँवर पिता कृष्णकुँवरसिंह, जाति राठोर राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	301	1.99		1.99	1.160	-	1.16
16	रमेशचन्द्र पिता नारायणलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	306		0.210	0.21		0.160	0.16
17	लीलाबाई पति भेरूलाल, जाति बलाई, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308		0.230	0.23		0.030	0.03
18	हरिप्रसन्न कुँवरपति शम्भूसिंह, जाति राठोर राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384		0.510	0.51		0.060	0.06
19	पारसमल पिता सुजानमल, जाति जैन, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	365		1.030	1.03		0.520	0.52
20	छोगालाल पिता गँगाराम, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	273		0.540	0.54		0.070	0.07
21	शंकर पिता भैरू, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	266		0.43	0.43		0.14	0.14
22	नारायण, कैलाश पिता नानुराम दाखाबाई, बेवा नानुराम, जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	307		0.170	0.17		0.090	0.09
23	कानजी पिता हीरालाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	274		0.320	0.32		0.090	0.09
24	राजेश कुमार पिता भेरूलाल पाटीदार जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	272	0.57		0.57	0.040		0.04
25	गोरधनलाल पिता नारायणलाल जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	296/1	0.49		0.49	0.020		0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	ईश्वरलाल, जगदीश पिता दुलीचंद नन्दीबाई बेवा दुलीचन्द, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम दर शिकमी.	294 500		0.73 0.63	0.73 0.63		0.28 0.25	0.28 0.25
27	ऊंकारलाल, रमेश, अमृतलाल पिता नारायण व सजनबाई बेवा नारायण जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	497	0.46		0.46	0.40		0.40
28	ऊंकारलाल पिता भैरूलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	589		0.34	0.34		0.02	0.02
29	कालू पिता धुला जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	499		0.16	0.16		0.15	0.15
30	गणपत पिता भैरूलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	588		0.36	0.36		0.20	0.20
31	गिरधारी पिता हीरा जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	691		0.84	0.84		0.59	0.59
32	गोविन्द पिता नन्दा जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591 590 514		0.38 0.54 0.25	0.38 0.54 0.25		0.06 0.46 0.19	0.06 0.46 0.19
33	चम्पु पिता गंगाराम जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	498		0.14	0.14		0.08	0.08
34	दौलतराम पिता पुनमचन्द जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319		0.24	0.24		0.22	0.22
35	नारायणप्रसाद पिता विष्णूलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	495	0.81		0.81	0.39		0.39
36	नगला पिता माँगीया जाति निनामा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	268/2		0.11	0.11		0.08	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	पुना पिता माँगीया जाति निनामा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	268/1		0.10	0.10		0.05	0.05
38	बाबूलाल पिता शम्भू जाति भील	279 269		0.83 0.60	0.83 0.60		0.47 0.60	0.47 0.60
39	बाबु पिता देवरा जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	595	0.43		0.43	0.06		0.06
40	भरतलाल पिता रणछोडलाल राधेश्याम पिता भरतलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502		0.07	0.07		0.01	0.01
41	मांगीलाल पिता पुनमचंद जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	267		0.73	0.73		0.57	0.57
42	रतनलाल पिता गिरधारी, जाति पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	278		0.39	0.39		0.11	0.11
43	राधेश्याम पिता गिरधारी जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	682	0.62		0.62	0.32		0.32
44	रामचन्द्र पिता देवराम जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	594		0.49	0.49		0.33	0.33
45	हरीराम पिता भेरूलाल पाटीदार भूमि स्वामी	292	0.44		0.44	0.25		0.25
योग :			10.28	14.30	24.58	3.58	6.35	9.93

### प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 557-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.



परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-बावड़ी, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	7.14	9.00	16.14
योग . .		7.14	9.00	16.14

### अनुसूची (2)

#### माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	लालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	283	0.60		0.60	0.08		0.08
2	नाथूसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1099 1098	1.01 0.68		1.01 0.68	0.30 0.50		0.30 0.50
3	भरत, ईश्वर, मांगीलाल, कैलाश, भँवरलाल, गोपाल, तेजराम, पिता भदवीर, बन्टीलाल, मुकेश, पिता भद्रवीर ना. बा. पा. क. माता सुकली व सुकली बेवा भदवीर मैड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	938 953 866		0.63 0.63 0.56	0.63 0.63 0.56		0.01 0.20 0.51	0.01 0.20 0.51
4	नन्दकिशोरदास ईश्वरदास सत्यनारायणदास पिता गोरधनदास वकालूदास पिता लछमणदास भूमि स्वामी भगवतीबाई, सज्जनबाई, कमलाबाई, पिता लछमणदास जाति बेरागी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	954 863		0.28 0.23	0.28 0.23		0.06 0.01	0.06 0.01
5	राधेश्याम पिता विष्णुदास व सुन्दरबाई बेवा, विष्णुदास जाति बेरागी ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	822/2		0.43	0.43		0.06	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	श्रीमती गीताबाई पति ऊँकारलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	871		0.30	0.30		0.03	0.03
7	ऊँकार पिता सुखराम, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	870	0.67		0.67	0.16		0.16
8	धन्ना पिता धुलजी, कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	827/1 295/1 827/1		0.93 0.66 0.27	0.93 0.66 0.27		0.33 0.16 0.12	0.33 0.16 0.12
9	मोहनबाई पति गभीरमल जाति जैन, पता निवासी पेटलावद भूमि स्वामी	295/2		0.65	0.65		0.17	0.17
10	लिलाबाई पति मांगीलाल तेली जाति तैली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	819	0.43		0.43	0.05		0.05
11	दशरथ, अमरसिंग, कालिया, बल्लू, कान्तु, पिता मडिया, धुलकी, बेवा मडीया, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	292/2		0.92	0.92		0.19	0.19
12	अंबाराम पिता मोतीराम जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	864		0.29	0.29		0.08	0.08
13	अजयकुँवर पिता बनेसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	1085		0.93	0.93		0.71	0.71
14	अमरिया, मुन्नालाल पिता बालु व बहादुरसिंह पिता बालू, ना. बा. पा. क. माता गीता व गीता बेवा, बालु मुण्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	949		0.39	0.39		0.03	0.03
15	अमृतलाल, रामलाल पिता हिरालाल सावित्रीबाई बेवा हिरालाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	280		0.62	0.62		0.36	0.36
16	कृष्णपालसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	1079	0.99		0.99	0.11		0.11
17	कैलाशकुँवर पति देवेन्द्र सिंह राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1070 1067/1 992	0.63 0.07 0.44		0.63 0.07 0.44	0.16 0.07 0.10		0.16 0.07 0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	गजराजसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	285		0.45	0.45		0.16	0.16
19	गोपालदास पिता विष्णुदास बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	822/1	0.48		0.48	0.01		0.01
20	गोबा, पुना पिता लाला, व माँगुडीबेवा लाला मुण्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	948 946		0.14 0.04	0.14 0.04		0.04 0.04	0.04 0.04
21	देवेन्द्र सिंह पिता किशोरसिंह जाति राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1101	1.44		1.44	0.56		0.56
22	नरेन्द्रकुमार पिता शैतानमल मोदी जाति जैन, पता निवासी पेटलावद भूमि स्वामी	1089/1		0.73	0.73		0.31	0.31
23	नागेन्द्रसिंह पिता भुरसिंह जाति राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1084/2	1.04		1.04	0.20		0.20
24	नाथू पिता रामचन्द्र सोलंकी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277/1 939		0.59 0.37	0.59 0.37		0.04 0.09	0.04 0.09
25	नाथूराम, पिता बाबर कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	279/1	0.98		0.98	0.59		0.59
26	नानूराम पिता रामचन्द्र मुण्या जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	945 952		0.12 0.08	0.12 0.08		0.06 0.08	0.06 0.08
27	नारायण पिता हेमराज जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	867 860	0.51 1.06		0.51 1.06	0.43 0.33		0.43 0.33
28	कैलाशकुंवर पति देवेन्द्र सिंह राठौर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1089/2		0.73	0.73		0.30	0.30
29	पूनकीबाई पति नाथू सोलंकी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	276		1.09	1.09		0.30	0.30
30	प्रतापसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	999/1		0.24	0.24		0.18	0.18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	बालूराम पिता बाबर जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	991/1176 859 821		0.06 1.12 0.97	0.06 1.12 0.97		0.03 0.71 0.37	0.03 0.71 0.37
32	भँवरकुँवर पिता रूघनाथसिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी.	1097	0.66		0.66	0.48		0.48
33	भागीरथ पिता नाथूराम पाटीदार जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	278		0.61	0.61		0.42	0.42
34	भेरूलाल पिता हरिराम कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	991	0.59		0.59	0.42		0.42
35	मनीराम पिता धुलाजी कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	858/1		0.35	0.35		0.06	0.06
36	ममता पति दिलीपकुमार लोडा जाति जैन पता निवासी बरबेट भूमि स्वामी	994		0.19	0.19		0.08	0.08
37	मायाकुमारी बेवा लक्ष्मणसिंह व अर्जुनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1086		1.31	1.31		0.44	0.44
38	रतनलाल पिता कनिराम जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	990		0.61	0.61		0.45	0.45
39	राजेन्द्र सिंह पिता शँकरसिंह राजपूत पता निवासी ग्राम	282 284	1.37 0.45		1.37 0.45	0.39 0.29		0.39 0.29
40	रामनारायण पिता हीरालाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	294	0.88		0.88	0.28		0.28
41	रामेश्वर पिता छोगालाल जाति कुलम्बी भूमि स्वामी	940		0.64	0.64		0.34	0.34
42	रूपालसिंह, कालुसिंह, बाबुसिंह पिता नटवरसिंग व कैलाशकुँवर बैवा नटवरसिंह, जाति राजपुत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	824		0.33	0.33		0.20	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	रुघनाथ पिता बाबर कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	281 993		0.63 0.25	0.63 0.25		0.36 0.23	0.36 0.23
44	वरदीचन्द पिता नाथूराम जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	950 947	0.16 0.45		0.16 0.45	0.16 0.25		0.16 0.25
45	विक्रमसिंह, कृष्णपालसिंह, पिता मोतीसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1078	0.85		0.85	0.27		0.27
46	शम्भू पिता रामचन्द्र मुण्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	951		0.09	0.09		0.09	0.09
47	शम्भू पिता सुखराम जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	865		0.53	0.53		0.40	0.40
48	श्री रामजी मन्दिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय, झाबुआ	235 1068 1069		0.61 0.31 0.37	0.61 0.31 0.37		0.01 0.21 0.30	0.01 0.21 0.30
49	संग्रामसिंह पिता उदेसिंह राजपुत पता	825 823	0.61 0.44		0.61 0.44	0.10 0.13		0.10 0.13
50	सुरजबाई पति संग्रामसिंह राजपुत पता	293 296	0.81 0.82		0.81 0.82	0.51 0.22		0.51 0.22
योग :			19.12	22.28	41.40	7.14	9.33	16.47

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 559-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-रूपारेल, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	2.56	1.21	3.77
योग . .		2.56	1.21	3.77

### अनुसूची (2)

#### माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	हुरजी पिता बाबू गेहलोत जाति भील, पता नि. कचनारिया भूमि स्वामी	18		0.42	0.42		0.01	0.01
2	शंभुबाई पति भेरू मेडा जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19	0.25		0.25	0.25		0.25
3	धुरकीबाई पति कवरीया मेडा जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	20		0.25	0.25		0.19	0.19
4	नानका पिता रायसिंग जाति सोलंकी भील पता मोटापाला भूमि स्वामी	21	0.25		0.25	0.14		0.14
5	कोदरिया पिता रायसिंग पता मोटापाला भूमि स्वामी	22	0.32		0.32	0.15		0.15
6	मलया पिता कालू जाति मड़डा भील पता सा. देह भूमि स्वामी	23 37		0.20 0.25	0.20 0.25		0.14 0.03	0.14 0.03
7	खुमसिंग पिता अमरिया व नन्दुडी बेवा अमरिया जाति भील पता सा. देह भूमि	25 40	0.35 0.19		0.35 0.19	0.02 0.19		0.02 0.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	रादू नुरजी, गोपाल गणपत पिता गलिया मेडा, जाति भील पता सा. देह भूमि स्वामी	26/1	0.38		0.38	0.15		0.15
9.	धनजी, हेमराज, गोपाल, मडीया पि. हकरीया व बदी बेवा हकरिया जाति	27 38	0.32 0.04		0.32 0.04	0.14 0.04		0.14 0.04
10	अमरा पि. कालू पता सा. देह भूमि स्वामी	28 36	0.40 0.25		0.40 0.25	0.01 0.17		0.01 0.17
11	थावरिया पिता मनजी जाति मैडा पता सा. देह भूमि स्वामी	33	0.32		0.32	0.01		0.01
12	रूपा पिता रामा जाति मईडा भील पता सा. देह भूमि स्वामी	34 48	0.30 0.51		0.30 0.51	0.11 0.51		0.11 0.51
13	उदा पिता सवला मयडा पता सा. देह भूमि स्वामी	35	0.55		0.55	0.12		0.12
14	धुलकीबाई पति बाबु औसारी जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/1 39/2		0.19 0.36	0.19 0.36		0.01 0.01	0.01 0.01
15	नानकिया भुण्डा धापुबाई सोनाबाई पिता बददा सुरजीबाई बेवा बददा गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41	0.28		0.28	0.15		0.15
16	पारी पति टीटा डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व	44		0.26	0.26		0.08	0.08
17	ऊकार पिता सबला जाति मेडा भील पता निवासी, ग्राम भूमि स्वामी	47 66	0.52		0.52 0.35	0.24		0.24 0.35
18	लुणिया पि. सबला जाति मैडा पता सा. देह भूमि स्वामी	54	0.08		0.08	0.08		0.08
19	थावरिया, सोमला, नानजी पिता दल्लाहेतूडी बेवा दल्ला रूपा पिता रामाथावरिया पिता मनजी जाति मैडा, पता सा. देह भूमि स्वामी.	57		0.02	0.02		0.02	0.02
20	बाबु पिता वेश्या जाति भील भूमि स्वामी	63/1		0.48	0.48		0.40	0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	लालज्या पिता उंकार, जाति कटारा भील, पता सा. देह भूमि स्वामी	67	0.05		0.05	0.05		0.05
योग :			5.61	2.53	8.14	2.56	1.21	3.77

### प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 561-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-अमरपुरा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	0.31	4.24	4.55
योग . .		0.31	4.24	4.55

### अनुसूची (2)

#### माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सुरतान पिता भेरा कटारा, जाति भील, पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी.	16/2 16/6 93/5	0.20 0.20	0.24	0.20 0.20 0.24	0.15 0.12	0.19	0.15 0.12 0.19
2	रामचंद पिता गलिया सौलंकी जाति भील पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	16/3 39 40 41		0.20 0.20 0.17 0.04	0.20 0.20 0.17 0.04		0.09 0.18 0.02 0.04	0.09 0.18 0.02 0.04



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	मानसिंग पिता गलिया सौलंकी जाति भील पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	16/4		0.23	0.23		0.05	0.05
4	गुला पिता भेरा कटारा जाति भील पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	16/5		0.24	0.24		0.21	0.21
5	मंगलिया पिता भेरा कटारा जाति भील पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	16/7	0.24		0.24	0.02		0.02
6	जौगडीया, बाबरिया पिता थावरिया, मडीया, गलिया, प्रभू पिता हडीया, गंगा बेवा हडीया, जाति पांडर (भील) पता निवासी रायपुरीया भूमि स्वामी	35 45 46		0.33 0.09 1.80	0.33 0.09 1.80		0.08 0.07 0.66	0.08 0.07 0.66
7	कालीबाई पति रतनलाल मुणिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37 38 44		0.10 0.17 0.07	0.10 0.17 0.07		0.08 0.09 0.07	0.08 0.09 0.07
8	अमरीया, दितिया, रामा पिता तोलिया पांडल सा. सागडिया मौरवी कृषक जोगडीया, पिता थावरियासा, रामपुरिया जाति पांडल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/2	0.95		0.95		0.08	0.08
9	नर्मदाबाई पति मोहन देवदा जाति भील, पता निवासी रायपुरिया भूमि स्वामी	51		0.24	0.24		0.05	0.05
10	रणछोड पिता गणेश वाखला जाति भील, पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	53/3	0.20		0.20		0.20	0.20
11	दला पिता गणेश वाखला जाति भील पता निवासी सागडिया भूमि स्वामी	53/4		0.20	0.20		0.20	0.20
12	लीलाबाई पति रमेश वसुनिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57		0.21	0.21		0.08	0.08
13	जानकी मांगुडी पिता मडिया गवजी पिता वेस्ता मांगु पिता भीमा मीणा	88 94		0.75 0.38	0.75 0.38		0.02 0.18	0.02 0.18
14	कालिया वल्द बाबू जाति खडीया पता नि. ग्राम सागडिया भूमि स्वामी	90		3.88	3.88		0.63	0.63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
15	शंकर पिता भेरा कटारा जाति भील, पता नि. सागडिया भूमि स्वामी	93/3		0.24	0.24		0.10	0.10	
16	गुला पिता भेरा कटारा जाति भील, पता नि. ग्राम सागडिया भूमि स्वामी	93/4		0.25	0.25		0.21	0.21	
17	नाथू पिता भेरा व पासूबाई बेवा भेरा, जाति कटारा पता नि. ग्राम सागडिया भूमि स्वामी	93/6		0.25	0.25		0.13	0.13	
18	हेमराज वल्द गलिया पता नि. ग्राम सागडिया भूमि स्वामी	95		0.37	0.37		0.19	0.19	
19	हरचंद पिता गमीरा, भँवर, माँगला, पिता विरसिंह माँगला, ना. बा. स. प्र. माता, गीता व गीता, बेवा विरसिंह डिन्डोर पता जामली भूमि स्वामी	97		0.58	0.58		0.36	0.36	
योग :				1.96	11.06	13.02	0.31	4.24	4.55

### प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 563-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-जुनाखेड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	1.23	6.16	7.39
योग . .		1.23	6.16	7.39

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मानसींग पिता गालिया जाति भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	2 5		0.32 0.33	0.32 0.33		0.02 0.25	0.02 0.25
2	लुणा पिता हुमजी सिंगाड जाति भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	4 135		0.28 0.36	0.28 0.36		0.11 0.14	0.11 0.14
3	नाथा पिता मडिया जाति डामर भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	6 7		0.16 0.53	0.16 0.53		0.20 0.12	0.20 0.12
4	लुणा पिता हुमजी सिंगाड जाति भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	15		0.59	0.59		0.38	0.38
5	नंदू रघुनाथ, नाथू पि. बालू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रूपीबाई बेवा बालू जाति चमार, पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	16		0.36	0.36		0.24	0.24
6	हिरालाल, गोपाल पिता भेरूलाल गंगाबाई, बेवा भेरूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17 19 76/4		0.39 0.17 0.34	0.39 0.17 0.34		0.20 0.08 0.27	0.20 0.08 0.27
7	गोबा पुत्र अम्बु जाति जामरा पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	62 64 66 77/1 78		1.26 0.24 0.49 0.90 0.47	1.26 0.24 0.49 0.90 0.47		0.69 0.14 0.15 0.23 0.45	0.69 0.14 0.15 0.23 0.45
8	रामचन्द पिता मुनसिया भूरिया जाति भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	112	1.28		1.28	0.30		0.30
9	शंकर पिता रामचंद भुरिया जाति भील पता नि. ग्राम रायपुरिया भूमि स्वामी	114	0.17		0.17	0.01		0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	नरसिंग पुत्र माला पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	119 152	0.25	0.84	0.84	0.02	0.29	0.29 0.02
11	जगन्नाथ पुत्र नानुराम जाति कुलबी, पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	129	1.69		1.69	0.67		0.67
12	वागजी पुत्र लूणा नीनामा जाति भील पता नि. रायपुरिया भूमि स्वामी	132		0.03	0.03		0.03	0.03
13	जवरिया, उंकार, दितीया, बाबू पि. रामचन्द्र टिबली बेवा रामचन्द्र जाति पारगी पता सा. लालकण्ठी भूमि स्वामी	137		0.33	0.33		0.18	0.18
14	धापुबाई पिता हुमजी सिंगाड जाति भील पता निवासी ग्राम रायपुरिया भूमि स्वामी	138		0.57	0.57		0.30	0.30
15	सकरीया, काना, पि. लाला, कोदर, पि. पुना कैलाशचन्द, रामकन्या पिता रालु जाति ताड (भील) पता निवासी रायपुरिया भूमि स्वामी	155		2.35	2.35		0.81	0.81
16	झीतरा पिता रूपा सिंगाड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193 194		0.50 1.34	0.50 1.34		0.22 0.45	0.22 0.45
17	रामचन्द पुत्र माला पता नि. रायपुरिया, भूमि स्वामी	195 196		0.50 0.45	0.50 0.45		0.42 0.02	0.42 0.02
योग :			4.29	13.20	17.49	1.23	6.16	7.39

### प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 565-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

### अनुसूची (1)

#### ग्राम-तलावपाड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	2.43	1.29	3.72
योग :		2.43	1.29	3.72

### अनुसूची (2)

#### माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नरसिंग, भूरी पिता वेश्या, मथुरी बेवा वेश्या, जाति सुअर भील, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	382		0.02	0.02		0.01	0.01
2	सुखराम, बाबू पिता धन्ना व घुसरबाई बेवा धन्नारामेश्वर पिता हुमला, कमली, रमीला, पता पि. हुमला भूमि स्वामी रामेश्वर, रमीला ना.बा.पा.क. माता लच्छुडी व लच्छुडी बेवा हुमला, जाति भुरीया भील, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	380		0.05	0.05		0.05	0.05
3	पूना पि. काना, शम्भू हम्बू कमल पि. नरसिंग व वरदीबेवा नरसिंग, जाति भुरीया भील, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	379 378		0.03 0.09	0.03 0.09		0.03 0.03	0.03 0.03
4	अम्बाराम पि. सरूपा व कान्तुही होमलीपपुडी पि. नान बचा व पुनी, पता सा. दे. भूमि स्वामी विधवा सरूपा पि. सरूपा व कान्तुही होमलीपपुडी पि. नानक्या व पुनी भूमि स्वामी विधवा सरूपा, जाति भाभर, पता सा. देह भूमि स्वामी.	341/1	0.48		0.48	0.47		0.47
5	वाल्या पि. बालु जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	338/1		0.28	0.28		0.15	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	मानसिंह पि. घिस्सा, जाति भूरिया, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	300 160/1 157	2.01	0.88 0.02	0.88 0.02	0.79	0.24 0.01	0.24 0.01
7	अम्बाराम, गंगाराम, खुमान पिता थावरियाव नन्दुडी बेवा थावरिया, जाति भाभर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	298		0.59	0.59		0.28	0.28
8	भेरू लक्ष्मण, अमरिया, अमृत पि. गोपाल कंकुडी बेवा गोपाल, जाति भाभर भील, भूमि स्वामी.	156		0.04	0.04		0.01	0.01
9	शम्भूलाल पि. हीरा जाति सिर्वी पता नि. ग्राम रामपुरिया भूमि स्वामी.	28		0.57	0.57		0.26	0.26
10	गणपत हेमराज पि. रूपा, जाति सिर्वी पता नि. ग्राम रामपुरिया भूमि स्वामी.	26/1	0.07		0.07	0.06		0.06
11	ईश्वरलाल पि. जगन्नाथ, जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम रामपुरिया भूमि स्वामी.	26/2 22	0.16 0.16		0.16 0.16	0.11 0.06		0.11 0.06
12	पेमा पि. रतना जाति सिर्वी, पता नि. रामपुरिया भूमि स्वामी.	27	0.33		0.33	0.22		0.22
13	जगन्नाथ पि. भागीरथ जाति कुलम्बी, पता नि. रामपुरिया भूमि स्वामी.	17	1.52		1.52	0.08		0.08
14	जमनालाल पिता रमेश पाटीदार, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम रायपुरिया भूमि स्वामी.	16/1	0.75		0.75	0.64		0.64
15	भेरूसिंग पिता हिरालाल, जाति राजपुत पता निवासी ग्राम (रायपुरिया) समान भाग भूमि स्वामी धर्मेन्द्रसिंह, भारतसिंग पिता बाबू, भावेशिंह पि. जुझारसिंह, उर्मीला, शर्मीला, चंचला पि. जुझारसिंह जाति राजपुत पता विष्णुकुवर बे. जुझारसिंह निवासी ग्राम भूमि.	126/2		0.37	0.37		0.02	0.02
16	रामेश्वर पिता गिरधारी नानालाल पिता लच्छीराम जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	126/1		0.24	0.24		0.20	0.20
योग :			5.48	3.18	8.66	2.43	1.29	3.72

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 567-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-रायपुरिया, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>निजी भूमि</b> माही शाखा नहर	491	12.02	16.93
योग :		491	12.02	16.93

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बालुराम पिता गोपाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	418	0.24		0.24	0.09		0.09
2	रामा पिता नरसिंह कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	419		0.34	0.34		0.10	0.10
3	कानजी, रमेश पिता अम्बाराम चौधरी जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	421		0.83	0.83		0.21	0.21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	दयाराम पिता बाबूलाल जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	422	1.14		1.14	0.40		0.40
5	शम्भू लाल पिता चम्पालाल, जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	437		0.53	0.53		0.06	0.06
6	रुग्गा पिता मोतीराम गोविन्द, पिता रुग्गा, जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	439	0.34		0.34	0.01		0.01
7	रमेशचन्द पिता अम्बाराम कस्तुरीबाई बेवा अम्बाराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	442		0.21	0.21		0.13	0.13
8	पुंजीबाई पति भेरूलाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	443/1		0.36	0.36		0.27	0.27
9	गिरधारी पिता उकीचन्द जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	444/1	0.20		0.20	0.04		0.04
10	दुलीचन्द पिता उकीचन्द जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	443/2		0.35	0.35		0.27	0.27
11	राधाबाई पति अमृतलाल, अँगूरबाला पति नन्दकिशोर जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	447 688	0.72 0.69		0.72 0.69	0.02 0.07		0.02 0.07
12	नन्दराम पिता नाथा जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	448 692	0.49 0.051		0.49 0.51	0.22 0.01		0.22 0.01
13	लालु पिता छोगालाल कुलम्बी जाति कुलम्बी, पता सा. देह भूमि स्वामी.	674		1.10	1.10		0.23	0.23
14	छोगालाल पिता दुलीचन्द कुलम्बी जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	675	1.30		1.30	0.21		0.21
15	ईश्वरलाल पिता देवराम जाति कुलम्बी, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	676		0.41	0.41		0.04	0.04
16	नानालाल पिता देवराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	677		0.39	0.39		0.11	0.11



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	गेन्दालाल पिता कनिराम कुलम्बी जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	678		0.32	0.32		0.10	0.10
18	बाबूलाल पिता हीरालाल जाति कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	680		0.61	0.61		0.15	0.15
19	रामेश्वर पिता दुलीचंद व नंदीबाई पति दुलीचंद कुलंबी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	685/1	0.82		0.82		0.13	0.13
20	काना पिता कालू, जाति कुलम्बी.	691 843		0.70 0.23	0.70 0.23		0.23 0.20	0.23 0.20
21	कलाबाई पति नन्दारम, सुन्दरबाई पिता कोदर जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	694		3.05	3.05		0.57	0.57
22	अम्बाराम पिता नन्दा जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	775		0.75	0.75		0.29	0.29
23	शँकर पिता प्रेमचन्द जाति कुलम्बी.	776 778		1.13 0.17	1.13 0.17		0.29 0.08	0.29 0.08
24	अम्बाराम, विष्णु पिता गोकुल व नाथीबाई बेवा गोकुल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम अलस्याखेड़ी भूमि स्वामी.	777/1		0.71	0.71		0.17	0.17
25	रतनलाल पिता कनीराम जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.	779	0.18		0.18	0.09		0.09
26	सुनिलकुमार पिता बाबुलाल मालवी जाति जेन, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	798/1	0.20		0.20	0.18		0.18
27	आनन्द कुमार पिता बसन्त कुमार जाति जेन, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	800/1		0.10	0.10		0.10	0.10
28	कैलाश कुंवर पति विक्रम सिंह चन्द्रावत, जाति राजपुत पता निवासी ग्राम बाछीखेड़ा भूमि स्वामी.	801/1		0.07	0.07		0.02	0.02
29	भागीरथ पिता नन्दराम कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	802		0.30	0.30		0.10	0.10
30	गँगाराम पिता तुलसीराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	822		0.60	0.60		0.02	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	दुलीचंद पिता शंकर जाति कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	823 824	0.24 0.23		0.24 0.23	0.09 0.17		0.09 0.17
32	नाथुराम पिता अम्बाराम कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	844	0.53		0.53	0.45		0.45
33	अमृतलाल पिता गंगाराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	845		0.38	0.38		0.17	0.17
34	नन्दकिशोर पिता रामनारायण जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	849		0.35	0.35		0.04	0.04
35	बाबुलाल पिता मुन्नालाल, नन्दी, राधा, पिता मुन्नालाल, सीता बेवा मुन्नालाल भूमि स्वामी कालुसिंग पिता भेरूलाल गुलाबबाई बेवा भेरूलाल जाति बलाई भूमि स्वामी.	895/1		0.28	0.28		0.03	0.03
36	नराण पिता रणछोड़ कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	896/1	0.27		0.27	0.22		0.22
37	मोहन पिता शंकर, जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	897/1		0.30	0.30		0.24	0.24
38	कैलाश पिता शंकर जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	897/2	0.29		0.29	0.21		0.21
39	जवाहरलाल पिता शम्भूलाल, जाति कुलंबी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	901/1		0.22	0.22		0.04	0.04
40	देवराम, नानालाल, रामेश्वर पिता पुनमचन्द जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.	900		0.43	0.43		0.31	0.31
41	सुकलीबाई पति नन्दा मैडा भुरिया, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1239/2		0.42	0.42		0.03	0.03
42	रामा पिता नंदा मेडा जाति भील, पता निवासी.	1240 1312		0.74 1.13	0.74 1.13		0.26 0.37	0.26 0.37
43	माँगीलाल पिता देवराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	1249	0.43		0.43	0.32		0.32
44	पीरू, गोपाल, पिता अमरा व गंगा पुत्री अमरा व गोपाल गंगा, ना. बा. पा. क. माता धापु व धापु बेवा अमरा व नानकिया गुड्डू पिता झितरा व सुंदरबाई बेवा झितरा मैडा जाति भील.	1250		1.09	1.09		0.49	0.49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	जालू पिता गंगाराम, जाति भूरिया भील पता सा. दे. भूमि स्वामी.	1313		0.38	0.38		0.38	0.38
46	गलीया, सोमला पिता सुकला जाति भूरिया	1314 1315		0.20 0.17	0.20 0.17		0.11 0.08	0.11 0.08
47	माँगीबाई पिता भेरिया, पारी, फनकी, पिता माँगलिया, ना. बा. स. प. मातानानुराम जाति भूरिया पता व नन्दा पिता लालज्या भूमि स्वामी.	1316		0.23	0.23		0.03	0.03
48	नारू पिता रामा भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1319 1359 1331	1.06 0.46 1.16		1.06 0.46 1.16	0.29 0.03 1.09		0.29 0.03 1.09
49	रतनी पति वेलसींग खडीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1320/1		1.06	1.06		0.63	0.63
50	ईश्वरलाल पिता देवराम जाति कुलम्बी, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	1321		0.48	0.48		0.15	0.15
51	रादु पिता नाथा रणा भूमि स्वामी.	1322		0.51	0.51		0.12	0.12
52	हुरा बाई पति रमेश भूरिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1323		0.52	0.52		0.07	0.07
53	शान्तीबाई पति माँगु, जाति मैड़ा भूमि स्वामी.	1324/1		0.59	0.59		0.16	0.16
54	केशरीया पिता पुना जाति भूरिया भूमि स्वामी.	1330/2		0.65	0.65		0.02	0.02
55	बालू, बाल्या, लालु पिता मड़ीया जाति भूरिया, पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1332 1354 1355 1357 1540 1557 1558 1560 1561	0.41   0.46     	 0.54 0.85  0.30 0.23 0.29 0.05 0.03	 0.54 0.85 0.46 0.30 0.23 0.29 0.05 0.03	0.06   0.27     	 0.02 0.33  0.30 0.11 0.26 0.05 0.02	 0.02 0.33 0.27 0.30 0.11 0.26 0.05 0.02
56	रामा पिता पूंजा भूरिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1452 1454		0.70 0.15	0.70 0.15		0.40 0.09	0.40 0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	अम्बाराम, चम्पालाल पिता काना जाति कुलम्बी, पता अलस्याखेड़ी, भूमि स्वामी.	1453		0.13	0.13		0.08	0.08
58	दिनेश अशोक पिता अमरिया व मीराबाई बेवा अमरिया व रमतु बेवा नाथा भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1463 1464 1465		0.09 0.94 0.50	0.09 0.94 0.50		0.05 0.46 0.22	0.05 0.46 0.22
59	बाबु दिनेश पिता दुधा व गीता बेवा दुधा भुरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1466		0.15	0.15		0.14	0.14
60	छोगालाल पिता गोपाल भुरिया जाति भील, पता निवासी, ग्राम भूमि स्वामी.	1467		0.15	0.15		0.03	0.03
61	कमल पिता जामसिंह मैडा जाति भील, पता निवासी रूपाखेड़ा तह. झाबुआ, भूमि स्वामी.	1529		0.06	0.06		0.02	0.02
62	लुणा पिता सकरिया जाति कटारा पता सा. दे. भूमि स्वामी.	1530 1573		0.09 0.89	0.09 0.89		0.09 0.40	0.09 0.40
63	राजेन्द्र पिता रामसिंह मुणिया जाति भील, पता निवासी ग्राम पालेडी, भूमि स्वामी.	1533/1		0.02	0.02		0.02	0.02
64	सुखराम पिता गोबरिया, जाति भूरिया, पता सा. दे. भूमि स्वामी.	1539		0.15	0.15		0.06	0.06
65	मथुरी, नानुडी, तुलसी पिता थावरिया जाति भुरिया पता सा. दे. भूमि स्वामी.	1556		0.08	0.08		0.02	0.02
66	गँगाराम पिता कोदर, जाति भुरिया, पता सा. दे. शासकीय पट्टेदार.	1571/1		0.50	0.50		0.26	0.26
67	सुखराम, बाबु, पिता धन्ना, धुसरबाई बेवा धन्ना, जाति भुरिया, पता सा. दे. भूमि स्वामी रामेश्वर, कमली, रमीला, पिता हुमला, रामेश्वर, रमीला ना. बा. पा. क. माता लछुडीव लछेडी बेवा हुमला जाति भुरिया, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1574		0.18	0.18		0.11	0.11
68	गलीया पिता नान्या जाति डामर भूमि स्वामी.	1584 1583		0.46 0.49	0.46 0.49		0.14 0.11	0.14 0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
69	थावरीया पिता रामा भुरीया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1358		0.62	0.62		0.36	0.36
70	गँगाराम पिता काना जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	690		0.31	0.31		0.09	0.09
71	नाथा पिता नानुराम, गिरधारी, भेरू, नरसिंग, दुलिचन्द पिता उकीचन्द भूमि स्वामी कालू, शम्भूलाल पिता नग्गा, जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	445		0.01	0.01		0.01	0.01
72	बाबु पिता गँगाराम जाति कुलम्बी, भूमि स्वामी.	425		1.63	1.63		0.54	0.54
योग :			13.50	32.85	46.35	4.91	12.02	16.93

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 569-ए-82-13-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित, भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-सुअरपाड़ा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि माही शाखा नहर	5.80	2.60	8.40
योग :		5.80	2.60	8.40

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रामेश्वर पिता भेरूलाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	715/1	0.20		0.20	0.20		0.20
2	रामचन्द्र पिता भेरूलाल जाति चौधरी, पता निवास रायपुरिया, भूमि स्वामी.	715/2	0.30		0.30	0.24		0.24
3	राधेश्याम पिता मांगीलाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	717 718/2	0.71 0.67		0.71 0.67	0.64 0.46		0.64 0.46
4	सुन्दरलाल पिता बाबुलाल जाति कुलम्बी.	720/1	0.52		0.52	0.10		0.10
5	बाबूलाल पिता गँगालाल जाति कुलम्बी, पता निवासी रामपुरिया भूमि स्वामी	719	1.29		1.29	0.63		0.63
6	रमेशचन्द्र पिता चम्पालाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	552	1.49		1.49	0.96		0.96
7	गिरधारी पिता नरसिंग जाति कुलम्बी, पता निवासी रायपुरिया, भूमि स्वामी.	526		1.23	1.23		0.61	0.61
8	सुकिया पिता शम्भु जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	549/1	1.20		1.20	1.20		1.20
9	कामेरीबाई पति लूणा पाटीदार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	547	0.85		0.85	0.53		0.53
10	धन्नामनजी भीमा पिता सोमजी लीला पिता सोमजी कटारा जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	524	0.81		0.81	0.17		0.17
11	तुलसीराम पिता रामा जाति कुलम्बी, पता निवासी रामपुरिया, भूमि स्वामी.	529 521	0.70	- 0.61	0.70 0.61	0.43	- 0.09	0.43 0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	मानजी पिता धनजी जाति सुअर भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	530	0.47		0.47	0.15		0.15
13	नारायण पिता रामजी जाति कुलम्बी, पता निवासी रायपुरिया भूमि स्वामी.	520		0.62	0.62		0.41	0.41
14	हुरसिंग, माँगू पिता ऊँकार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	515 505		1.27 1.26	1.27 1.26		0.43 0.06	0.43 0.06
15	भुवान पिता हेमला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	512		0.45	0.45		0.09	0.09
16	सोबान पिता उकार भुरकी बेवा उकार, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	511	0.38		0.38	0.09		0.09
17	पुंजा अन्जु अन्तो सन्तो पिता वालिया बिजली बेवा वालिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	510		0.41	0.41		0.10	0.10
18	भेरू पिता पुंजा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	508 506		0.64 0.11	0.64 0.11		0.23 0.08	0.23 0.08
19	मडिया भुरिया कंहेया पिता माला बुआरिया पिता काल्या, भाभर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	495/1		0.22	0.22		0.22	0.22
20	कल्ला पिता बद्दा भाभर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	495/2		0.22	0.22		0.22	0.22
21	कल्ला पिता कदिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	496 497		0.11 0.07	0.11 0.07		0.05 0.01	0.05 0.01

योग :

9.59	7.22	16.81	5.80	2.60	8.40
------	------	-------	------	------	------

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 571-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-कुण्डवास, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>निजी भूमि</b> माही शाखा नहर	1.55	1.10	2.65
योग :		1.55	1.10	2.65

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नारू पिता रामा, होमजी सुरेश पिता वरसिंग कोदी बेवा वरसिंग भुरीया जाति भील, पता नि. ग्राम सुवरपाड़ा, भूमि स्वामी.	708		0.04	0.04		0.04	0.04
2	नन्दू अन्तु पुनिया पिता नारू सुगा विशना, पिता नारू जाति भाभर, भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	381/6 381/3	0.58 0.20		0.58 0.20	0.22 0.20		0.22 0.20
3	नाना पिता दीपला भाभर, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	381/5	0.66		0.66	0.26		0.26



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	काना, शम्भू प्रभु, धन्ना, मुन्या पिता भुरजीझन्गूडी बेवा भुरजी केशरी, अमरी, पपुड़ी, पिता भुरजी भाभर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	381/2	0.18		0.18	0.04		0.04
5	सुरपाल पिता राजु भूरीबाई बेवा राजू जाति भावर भील पता ना. ग्राम भूमि स्वामी.	62 76/1	0.78 0.22		0.78 0.22	0.06 0.06		0.06 0.06
6	मांगू, विनोद पिता गलियाना बा. पा. क. दादी मां पासूडी व पासूडी बेवा डूंगा जाति भाभर भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	76/2	1.06		1.06	0.39		0.39
7	मंगलिया पिता कालू जाति मेड़ा भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	99		0.62	0.62		0.25	0.25
8	प्रेमचन्द्र पिता कालू जाति मेड़ा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	97	0.36		0.36	0.15		0.15
9	रणछोड़ पिता कालू जाति मेड़ा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	96		0.68	0.68		0.10	0.10
10	हेमत्या पिता कालू जाति मैड़ा भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	92		0.28	0.28		0.06	0.06
11	गलिया पिता कालू मैड़ा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	91	0.29		0.29	0.07		0.07
12	बालचंद पिता मुल्या मैडा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	90	0.32		0.32	0.05		0.05
13	हुरसिंग दुलेसिंग लालु पिता नरसिंग ताजसिंह पिता रावजी, कमजी, कालु पि., रूपला, सुरतान बैवा रूपला, जाति रावत, भिल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	89 86 85 87		0.59 0.58 0.24 1.21	0.59 0.58 0.24 1.21		0.22 0.31 0.12 0.03	0.22 0.31 0.12 0.03
14	जमना पिता नरसिंग जाति रावत भील, पता निवासी रूपगढ़ भूमि स्वामी.	80/1	0.14		0.14	0.02		0.02
योग :			6.00	3.03	9.03	1.55	1.10	2.65

## प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 573-ए-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में **माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ** की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

## अनुसूची (1)

## ग्राम-रूपगढ़, तहसील-पेटलावद

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>निजी भूमि</b> माही शाखा नहर	5.91	6.86	12.77
योग :		5.91	6.86	12.77

## अनुसूची (2)

## माही शाखा नहर

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पांगलीबाई पति मुकेश डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	857/2		0.28	0.28		0.16	0.16
2	रमेश पिता लिम्बा वाली बेवा लिम्बा, बाबू, नन्दू पिता पून्जा काली पुत्री पुन्जा, उदीया, वरदीचन्द्र पिता लुंजा, अमरसिंग, मनोहर, पिता रतन, राधाबाई बेवा रतन बसन्ती, पिता रतन, जाति मेड़ा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	857/1	0.20		0.20	0.06		0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	राधेश्याम, कैलाश, पिता भेरू जाति भाभर, भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी दयाराम, रमेश पिता सोमला, अरविन्द, सरजू सुनीता, जाना पिता मोहन ना. बा. स. प. माता गीताबाई व गीताबाई बेवा मोहन जाति भाभर, भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	850		0.80	0.80		0.06	0.06
4.	पुंजली पिता पूना भाभर, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	855		0.28	0.28		0.10	0.10
5	अमरसिंग पिता गणपत जाति भाभर भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	853		0.34	0.34		0.16	0.16
6	दूबलीबाई पति शान्तू डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	842/1		0.24	0.24		0.24	0.24
7	ऐतरीबाई पति बाबुलाल जाति गामड़, पता सा. दे. भूमि स्वामी	839		1.87	1.87		0.68	0.68
8.	भीमा पिता दलसिंग जाति गरवाल भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	838/2	0.70		0.70	0.18		0.18
9	नारायण पिता चैनसिंग भाभर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	885/2	0.92		0.92	0.01		0.01
10	अमरसिंह, गोपाल, पिता चैनसिंग जाति भाभर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सरजुबाई, बेवा चैनसिंग जाति भाभर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	885/1		0.65	0.65		0.26	0.26
11	भेरूलाल पिता दुधा अम्बूडी पिता दूधा होनकी बेवा दूधा जाति गामड़ भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	887		0.49	0.49		0.10	0.10
12	रामचन्द पिता भीमा जाति गामड़ भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	987		0.61	0.61		0.06	0.06
13	गोबा पिता नगला जाति गामड़ भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	982 983		0.57 0.23	0.57 0.23		0.33 0.02	0.33 0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	कैलाश पिता प्रेमचंद, लीलाबाई बेवा प्रेमचन्द, कान्ता पिता प्रेमचन्द जाति बर्मन हरीजन, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	911		0.35	0.35		0.07	0.07
15	लक्ष्मण पिता तुलसीराम जाति हरीजन, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	912		0.25	0.25		0.07	0.07
16	शान्तू काना, पिता नन्दू रामचन्द पिता भीमा, गलीया, हेमराज, राम लखन, पिता सकरिया जाति गामड़ भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	915		0.41	0.41		0.29	0.29
17	हीरा पिता सूकला जाति गामड़ भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	919		0.65	0.65		0.17	0.17
18	लुणा पिता मोड़ा जाति चोयल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	920	1.23		1.23	0.04		0.04
19	उदा पिता मोड़ाजी जाति चोयल सिर्वी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	921		0.86	0.86		0.29	0.29
20	मोती पिता मोड़ा जाति चोयल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	922	0.72		0.72	0.25		0.25
21	शान्तु पिता नारायण जाति चोयल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	923/2	0.80		0.80	0.24		0.24
22	राजू पिता नारायण चोयल जाति सिर्वी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	923/1	0.86		0.86	0.31		0.31
23	कन्हैयालाल रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति सिर्वी (लछेटा) पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	962	4.06		4.06	0.87		0.87
24	दिता पिता वज्जा डामर जाति भील, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	933	0.43		0.43	0.34		0.34
25	धन्नालाल, मन्नालाल, गजेन्द्र पिता शंकरलाल शान्तिबाई बेवा शंकरलाल हामड जाति सिरवी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	934	1.02		1.02	0.25		0.25
26	गेन्दीवाई बेवा भूरा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	935		0.59	0.59		0.12	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	लूणा, नारायण, पैमा, भगवानसिंह मोहन पिता धुलीया नानीया पिता मोटानन्दलाल पिता तेजा, गेन्दीबाई बेवा भूरा जाति परवार सिर्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	938		0.49	0.49		0.12	0.12
28	जमनालाल पिता नारायण जाति गेहलोत सिर्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	563 310 311	1.41 0.18 0.98		1.41 0.18 0.98	0.46 0.11 0.45		0.46 0.11 0.45
29	लालू, हकरू, पिता थावरिया सडीया पिता हरजी, लालू पिता कालू, हीरा बेवा कालू जाति डामर भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	205 312 204/1		0.75 0.20 0.60	0.75 0.20 0.60		0.75 0.07 0.28	0.75 0.07 0.28
30	भेरूलाल, शान्तिलाल पिता हिरालाल जाति हामड़ सिर्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी, फुलीबाई बेवा हिरालाल जाति हामड़ सिर्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	206 207 194		0.97 1.03 3.56	0.97 1.03 3.56		0.23 0.23 0.86	0.23 0.23 0.86
31	चेनसिंग, मूलचंद पिता नानाजी व रतिबाई बेवा नानाजी जाति राठौर (सिर्बी) पता नि. ग्राम (रूपगढ़) भूमि स्वामी.	163	8.11		8.11	1.16		1.16
32	नन्दीबाई पती मोतीलाल जाति गेहलोत, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	162		1.29	1.29		0.30	0.30
33	हिरालाल, शंकरलाल पिता चैनसिंग जाति सिर्बी (सोलंकी) पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.	93	0.44		0.44	0.26		0.26
34	शंकरलाल पिता चेनाजी जाति सोलंकी सिर्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	92/2		0.38	0.38		0.05	0.05
35	गोविन्द, चम्पालाल पिता आयदान, ना बा. पुत्री अनिता निर्मला पिता रमेश अ. पा. क. माता अमरी बेवा रमेश, जानीबाई बेवा आईदान जाति सिर्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	92/1		0.31	0.31		0.19	0.19

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. चन्द्रशेखर**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2014

क्र. D-3185-दो-2-32-2006.—श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 31 मई 2014 तक, तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 मई 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2014

क्र. B-1019-दो-2-16-2013.—श्री राम प्रकाश शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 28 मई 2014 तक, दस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. B-1021-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 28 अप्रैल से 13 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2014

क्र. C-2270-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 2 से 11 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2272-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 23 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2274-दो-2-25-2014.—श्री इकबाल अहमद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2278-दो-2-24-2014.—श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 7 से 11 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2280-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जावे :—

- (1) दिनांक 21-4-2014 से दिनांक 22-4-2014 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- (2) दिनांक 23-4-2014 से दिनांक 29-4-2014 तक 07 दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3063-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 22 से

24 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-3065-दो-3-44-2013.—श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 3 से 5 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

Jabalpur, the 16th May 2014

No. B-2007-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred Under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjay Shukla, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Rewa for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Rewa.



No. B-2009-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Gauri Shankar Dubey, Special Judge, SC/ST (POA) Act, E. N. Khanwa for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at E. N. Khanadwa.

By order of the High Court,  
S. S. RAGHUVANSHI, Registrar (DE).

जबलपुर, दिनांक 7 मई 2014

क्र. A-1683-दो-2-15-2014.—श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 मार्च 2014 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 मार्च से 7 अप्रैल 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सिंह विशेष कर्तव्यस्थ

अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2014

क्र. 654-गोपनीय-2014-दो-3-49-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी नीलिमा गुजरकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन “श्रीमती नीलिमा देव दत्त” पत्नी श्री देव दत्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2014

क्र. 667-गोपनीय-2014-II-2-33-57(Pt.-II).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, दिनांक 1 जून 2014 से पदस्थ करता है :—

#### सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से दिनांक 1 जून 2014 से.

जबलपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्र. 671-गोपनीय-2014-IV-12-40-2005(Pt.-II).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, निम्न तालिका के स्तंभ (2) में दर्शित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को, स्तम्भ (3) में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत, उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश

(ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान करता है :—

### सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड[Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा	23-7-2013
2	श्रीमती वंदना जैन	22-7-2013
3	श्री पद्मेश शाह	22-7-2013
4	श्री शिवकांत	25-7-2013
5	श्री हेमंत जोशी	23-7-2013
6	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी	25-7-2013
7	श्री शरद भामकर	24-7-2013
8	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह	23-7-2013

क्र. 672-गोपनीय-2014-IV-12-40-2005(Pt.-II).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्न तालिका के स्तंभ (2) में दर्शित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को स्तंभ (4) में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत, उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एस. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है :—

### सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान एवं जिले का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड[Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उदय सिंह मरावी	जयसिंहनगर (शहडोल)	15-10-2009
2	श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-1)	इटारसी (होशंगाबाद)	22-7-2013
3	श्रीमती निहारिका सिंह	इन्दौर	22-7-2013
4	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा	इन्दौर	22-7-2013
5	श्री नवीन कुमार शर्मा	ग्वालियर	23-7-2013
6	श्रीमती कविता दीप खरे	सतना	25-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री सुधीर मिश्रा	इटारसी (होशंगाबाद)	31-7-2013
8	श्री यतीन्द्र कुमार गुरू	उमरिया	22-7-2013
9	श्रीमती दीपाली शर्मा	उज्जैन	28-7-2013
10	श्री दीपक शर्मा	सागर	25-7-2013
11	श्री दिलीप गुप्ता	इन्दौर	22-7-2013
12	श्रीमती पावस श्रीवास्तव	बड़नगर (उज्जैन)	24-7-2013
13	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	डिण्डोरी	25-7-2013
14	श्री अमित रंजन समाधिया	इन्दौर	28-7-2013
15	श्री अवधेश कुमार (गुप्ता)	सागर	23-7-2013
16	श्रीमती कुमुदिनी पटेल	होशंगाबाद	23-7-2013
17	श्री विपिन कुमार लावनिया	ग्वालियर	22-7-2013
18	श्री तनवीर अहमद खान	जबलपुर	28-7-2013
19	श्री उमाशंकर अग्रवाल	महू (इंदौर)	24-7-2013
20	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह	बुढ़ार (शहडोल)	22-7-2013
21	श्री प्रदीप कुशवाह	निवाड़ी (टीकमगढ़)	25-7-2013
22	श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान	भोपाल	26-7-2013
23	श्री अनुराग द्विवेदी	सतना	24-7-2013
24	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर)	भोपाल	24-7-2013
25	श्री शशि भूषण शर्मा	इन्दौर	22-7-2013
26	श्री संजय गोयल	जबलपुर	25-7-2013
27	श्रीमती सुरेखा मिश्रा	बासौदा (विदिशा)	31-7-2013
28	श्री विवेक शर्मा	उज्जैन	28-7-2013
29	श्री राकेश कुमार गोयल	गरौठ (मंदसौर)	24-7-2013
30	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान	इन्दौर	23-7-2013
31	श्री सुनील कुमार मिश्रा	कटनी	28-7-2013
32	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	इन्दौर	25-7-2013
33	श्री संजय कुमार सिंह	भोपाल	24-7-2013
34	श्री केशवमणि सिंघल	कोलारस (शिवपुरी)	26-7-2013
35	डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह	देवास	24-7-2013
36	श्रीमती कविता वर्मा	मुरैना	25-7-2013
37	श्री सुजीत कुमार सिंह	जबलपुर	31-7-2013
38	डॉ. वैभव विकास शर्मा	इन्दौर	25-7-2013
39	श्री राम विलास गुप्ता	लौंडी (छतरपुर)	23-7-2013
40	श्री राजेश कुमार देवलिया	बीना (सागर)	22-7-2013
41	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती	विजयपुर (श्यापुर)	24-7-2013
42	श्री पवन कुमार बांदिल	डबरा (ग्वालियर)	26-7-2013
43	श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2)	खरगोन (मण्डलेश्वर)	24-7-2013
44	श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर)	इन्दौर	28-7-2013
45	श्री दीपक बंसल	कटनी	25-7-2013
46	श्री अरुण श्रीवास्तव	देपालपुर (इंदौर)	22-7-2013
47	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	भोपाल	25-7-2013
48	श्री तपेश कुमार दुबे	देवरी (सागर)	25-7-2013
49	श्री अजय सिंह ठाकुर	सरदारपुर (धार)	28-7-2013
50	श्री प्रशांत कुमार	ग्वालियर	25-7-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
51	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर)	कटनी	28-7-2013
52	श्री ऋतुराज सिंह चौहान	रतलाम	30-7-2013
53	श्री राम प्रताप मिश्रा	दतिया	24-7-2013
54	श्री सुशील कुमार	भोपाल	23-7-2013
55	श्रीमती वंदना राज पाण्डेय	अंजड़ (बड़वानी)	28-7-2013
56	श्री अरुण कुमार सिंह (जूनियर)	बुधनी (सीहोर)	25-7-2013
57	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	सिरोंज (विदिशा)	28-7-2013
58	श्री संजय श्रीवास्तव	चांचौड़ा (गुना)	22-7-2013
59	श्री आलोक कुमार मिश्रा	इंदौर	24-7-2013
60	श्री सुनील मालवी	कसरावद (मण्डलेश्वर)	25-7-2013
61	श्री संतोष कुमार गुप्ता	परासिया (छिन्दवाड़ा)	26-7-2013
62	श्रीमती निशा गुप्ता	शहडोल	24-7-2013

क्र. 673-गोपनीय-2014-IV-12-40-2005(Pt.-II).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, निम्न तालिका के स्तंभ (2) में दर्शित प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्न वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को स्तंभ (3) में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत, उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एस. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान करता है :—

#### सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान एवं जिले का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम. / सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM / CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक
------	----------------	---------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत	भोपाल	25-7-2013
2	श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर)	भोपाल	25-7-2013
3	श्री सचिन शर्मा	भोपाल	22-7-2013
4	श्री अनिल कुमार पाठक	ग्वालियर	24-7-2013
5	श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर)	इंदौर	25-7-2013

क्र. 675-गोपनीय-2014-दो-3-70-60.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :—

#### सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री कुमारी रितु चौहान	बैतूल
2	कुमारी शिवानी धतरा	ग्वालियर

(1)	(2)	(3)
3	श्रीमती अर्चना रघुवंशी	भोपाल
4	श्रीमती नेहा श्रीवास्तव	छतरपुर
5	श्री यशपाल सिंह	सतना
6	श्री मुकेश सिंह चौहान	डबरा
7	श्रीमती नताशा शेख पटेल	धार
8	श्री अशीष श्रीवास्तव (जूनियर)	हरदा
9	श्री ऋषिराज त्रिवेदी	भानपुरा
10	श्री संतोष कुमार तिवारी	गोहद
11	श्री वीरेन्द्र जोशी	मंदसौर
12	श्रीमती प्राची उपाध्याय	इटारसी
13	श्री सचिन ज्योतिषी	सिवनी
14	श्री मधुसूदन जंधेल	कोतमा
15	श्री राकेश कुमार शर्मा (जूनियर)	हातोद
16	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	जबलपुर
17	श्री वीरेन्द्र वर्मा	हटा
18	श्रीमती नीलिमा देव दत्त	सागर
19	श्री फिरोज अख्तर	आष्टा
20	श्री विकाश कुमार शर्मा	देपालपुर
21	श्रीमती स्वाती निवेश जायसवाल	आष्टा
22	श्री राकेश सनोडिया	इंदौर
23	श्री अश्विन परमार	जावरा
24	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय	रामपुर-बधेलान
25	श्री शशांक सिंह	बण्डा
26	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा	ग्वालियर
27	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	बदनावर
28	श्री लवकेश सिंह	छतरपुर
29	श्री रामप्रसाद सिंह	देवसर
30	श्री दीनानाथ बाडिवा	जुन्नारदेव (जामई)
31	श्री कुमारी मंजूषा इडपाचे	छिंदवाड़ा
32	श्री अतुल बिल्लोरे	इंदौर
33	कुमारी सविता मरावी	नरसिंहपुर
34	श्रीमती अनु सिंह	सतना
35	श्री विधान माहेश्वरी	देवास
36	सुश्री निधि श्रीवास्तव	सागर
37	श्री विश्व दीपक तिवारी	मऊगंज
38	श्री कुसुम हरा चक्रवर्ती	बैढ़न
39	श्री गिरीश कुमार शर्मा	विदिशा
40	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री	जबलपुर
41	सुश्री मधुलिका मुले	इंदौर
42	श्रीमती नेहा बंसल	विदिशा
43	सुश्री तबस्सुम खान	कटनी

(1)	(2)	(3)
44	श्री शरद कुमार लटौरिया	शहडोल
45	श्री प्रशांत पाण्डेय	भोपाल
46	श्री राम मनोहर सिंह दांगी	दमोह
47	श्री पंकज शर्मा	जौरा
48	श्री मोहम्मद जफर खान	बैतूल
49	श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार	सिरमौर
50	श्री अरविन्द श्रीवास्तव	बरेली
51	श्री अमित निगम	सिहोरा
52	श्री बृजेश सिंह	रामपुर-बघेलान
53	श्री अनुराग सिंह कुशवाह	चुरहट
54	सुश्री स्नेहा सिंह	कटनी
55	श्री अभिषेक सोनी	सिवनी
56	श्री शिवचरण पटेल	खरगौन
57	श्री आरिफ खान	मनासा
58	श्री राजेश नामदेव	मुंगावली
59	श्री बलवीर सिंह धाकड़	खनियाधाना
60	श्री धीरज कुमार	बिजावर
61	श्री राकेश कुमार कुशवाह	कोलारस
62	श्री गिरजेश कुमार सनोडिया	निवास
63	श्री संजोग सिंह वाघेला	मनावर
64	श्रीमती कला भम्बरकर	गोहरगंज
65	श्री कमलेश मीणा	अशोकनगर
66	श्री विपेन्द्र सिंह यादव	भोपाल
67	श्री रमाकांत भारके	अमरवाड़ा
68	श्री नवनीत सिंह यादव	लहार
69	श्री प्रकाश कुमार उईके	भैंसदेही

क्र. 677-Confdl.-2014-II-2-36-07.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सदस्य न्यायाधीश (एंट्री लेवल), औद्योगिक न्यायालय को सदस्य न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है :—

#### सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सदस्य न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री व्ही. के. कोष्टी, सदस्य न्यायाधीश, भोपाल.	1-9-2013	सदस्य न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर.

क्र. 679-Confdl.-2014-II-2-36-07.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित श्रम न्यायाधीश (एंट्री लेवल), श्रम न्यायालय को श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर उनके नाम

के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है :—

### सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सदस्य न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री साहेब राव चारे श्रम न्यायाधीश, सतना.	24-12-2013	श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर.

जबलपुर, दिनांक 10 मई 2014

क्र. 651-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुमारी रजनी बाथम	उज्जैन	परासिया	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2014

क्र. 657-गोपनीय-2014-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी)1-2007-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक-91) दिनांक 28 अप्रैल 2014 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

### सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मीना शाह	पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.